

(Formerly Known as Fedex Securities Limited)
MERCHANT BANKING DIVISION



B Wing, Jay Chambers, 3rd Floor Nanda Patkar Road, Vile Parle (East), Mumbai 400 057. Tel: +91 2613 6460 / 61 +91 81049 85249

E-mail: mb@fedsec.in •www.fedsec.in CIN: U67120MH1996PTC102140

Date: August 06, 2021

To,
The General Manager
Department of Corporate Relations
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001

Dear Sir / Madam,

Sub: Open Offer ("Offer") for acquisition of upto 28,36,080 fully paid-up equity shares of Rs. 10/- each ("Equity Shares") from shareholders of White Organic Retail Limited ("Target") by Suumaya Retail Limited (the "Acquirer") along with Suumaya Industries Limited as the person acting in concerts ("PAC") pursuant to and in compliance with Regulation 3(1) and 4 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 as amended ("SEBI SAST Regulations").

With respect to the captioned Open Offer, in accordance with 18(12) of SEBI (SAST) Regulations, please find enclosed the **Post Offer Advertisement** that has appeared in following newspapers on August 06, 2021, in the following newspapers:

- A. Financial Express English-All editions
- B. Jansatta -Hindi- All editions
- C. Mumbai Lakshadeep Marathi Mumbai editions

We request you to take the same on records and upload it on your website for dissemination to the public.

Kindly acknowledge the receipt.

Thanking you,

With regards,

For, Fedex Securities Private Limited (Formerly Fedex Securities Limited)

**Authorised Signatory** 

Name: Yash Kadakia Email: yash@fedsec.in

Encl: as above

**FINANCIAL EXPRESS** 

# Jumbo Finance Limited

Office No. 805, 8th Floor, 'A' Wing Corporate Avenue, Sonawala Road, Goregaon (East) Mumbai - 400063 Telefax: 022-26856703 Email: jumbofin@hotmail.com Web: www.jumbofinance.co.in CIN: L65990MH1984PLC032766

We would like to inform you that meeting of the Board of Directors is scheduled to be held on Friday, 13.08.2021 at 4.00 p.m. at the Registered Office of the Company at Office No. 805, 8" Floor, 'A' Wing Corporate Avenue, Sonawala Road, Goregaon (East) Mumbai - 400063 to consider and adopt the Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30" June, 2021 and any other matter as may be decided in the Board.

Further, as per the Company's Code of Conduct for the Prevention of Insider Trading, the Trading Window for dealing in shares of the Company shall remain closed for all Designated Employees and Directors from 01.07.2021 till 48 hours after declaration of results.

For Jumbo Finance Limited Sd/-Director

Place : Mumbai Date : 04.08.2021

### EVERGREEN TEXTILES LIMITED CIN: L17120MH1985PLC037652 Podar Chambers, 109, S. A. Brelvi Road,

Fort, Mumbai – 400 001. Tel: 91 22 2204 0816 | 22821357 E.mail: rmb@podarenterprise.com Website: www.evergreentextiles.in

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 12<sup>th</sup> August, 2021, inter-alia, to

consider and approve the Un-audited

Financial Results for the guarter ended 30°

June, 2021.
Further, as intimated vide our letter dated 30<sup>th</sup> June, 2021, the trading window for dealing in the securities of the Company by the specified persons was closed w.e.f. Thursday, 01<sup>th</sup> July, 2021 and shall reopen 48 hours after the declaration of Financial

Results to the Stock Exchange.
This intimation is also available on the Company's website www.evergreentextiles.in and BSE website www.bseindia.com

3SE website www.bseindia.com For Evergreen Textiles Limited Sd/-Rajendra Manoharsingh Bolya

Rajendra Manoharsingh Bolya Director (DIN: 00086395) Place : Mumbai

Place : Mumbai Date : 04<sup>th</sup> August, 2021



SHORT TERM TENDER NOTICE

On line e-tenders are invited from Manufactures (as per details given in tender documents) for Rotatary screen to various Cooperative Sugar Factories of U.P. The e-tender documents with detailed specifications, terms and conditions etc. can be downloaded from e-tender portal <a href="http://etender.up.nic.in">http://etender.up.nic.in</a> & federation website

The Federation reserves the right to cancel any or all bids/annual e-bidding process without assigning any reason to & decision of Federation will be final & binding.

MANAGING DIRECTOR

FAAA / STABLE

Date: 02-08-2021




P.NO:P-8220/U.P.F./

www.upsugarfed.org

# **SUNDARAM HOME**

# Revision of Interest Rates on Fixed Deposits / Renewals effective 08.08.2021 as follows



Monthly interest option available under 36 / 48 / 60 month deposits

- Minimum Deposit of ₹ 10,000/- per account.
   Interest rates on existing deposits remain unchanged.
   Trust deposits are specified investment under section 11(5)(ix) of Income-tax Act, 1961.
   Senior Citizens Completed 60 years of age on date of deposit / renewal.
- This advertisement appears further to the statutory advertisement published by the Company in "Business Line" & "Makkal Kural" on 18.07.2020.

"Business Line" & "Makkal Kural" on 18.07.2020.

The text of the statutory advertisement is also printed on all application forms which may be referred to before investing in the Company's Deposit Schemes.

### Sundaram Home Finance Limited

(Formerly known as Sundaram BNP Paribas Home Finance Limited)

Registered Office: 21, Patullos Road, Chennai - 600 002.

Phone: (044) 2852 1181 (General), 2888 1780 / 2852 0391 / 2888 1781 (Deposits)

Corporate Office: "Sundaram Towers", 46, Whites Road, Chennai - 600 014.

Phone: (044) 2851 5267, 2851 5269, Fax: (044) 2858 2235

e-mail: depositorcare@sundaramhome.in Website: www.sundaramhome.in

CIN: U65922TN1999PLC042759

POST OFFER ADVERTISEMENT UNDER REGULATION 18(12) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED WITH RESPECT TO THE OPEN OFFER TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

# WHITE ORGANIC RETAIL LIMITED

Registered Office: 312A, Kailas Plaza Vallabh Baug Lane, Ghatkopar (East),
Mumbai 400077, Maharashtra, India. Tel: +91-22-25011983; Telefax: +91-22-25011984;
Email: info@whiteorganics.co.in; Website: www.whiteorganics.co.in

Open offer for acquisition of up to 28,36,080 (Twenty-Eight Lakhs Thirty-Six Thousand and Eighty) fully paid-up equity shares of face value of Rs. 10 /- (Rupees Ten Only) each ("Equity Shares") representing 26.00% (Twenty-Six percent) of the Expanded Voting Share Capital at a price of Rs 37.45/- (Rupees Thirty-Seven and Forty-Five Paise Only) per Equity Share payable in cash of White Organic Retail Limited ("WORL" or "the Target Company" or "TC"), from the Shareholders of the Target Company by Suumaya Retail Limited (hereinafter referred to as "Acquirer") along with Suumaya Industries Limited (formerly known as Suumaya Lifestyle Limited) (hereinafter referred to as "PAC") ("Offer" or "Open Offer") pursuant to and in accordance with Regulation 3(1) and 4 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendment thereto ("SEBI (SAST) Regulations").

This Post Offer Advertisement ("Post-Offer Advertisement") is being issued by Fedex Securities Private Limited (formerly Known as Fedex Securities Limited), the Manager to the Offer ("Manager to the offer"), on behalf of Acquirer and PAC, in connection with the Offer made by the Acquirer along with PAC, in compliance with Regulation 18(12) of the SEBI (SAST) Regulations.

This Post Offer Advertisement is to be read in continuation of, and in conjunction with: (a) the Public Announcement (the "PA") dated May 21, 2021; (b) the Detailed Public Statement (the "DPS") which was published on May 28, 2021 in Financial Express (English, all editions), Jansatta (Hindi, all editions), and Mumbai Lakshadeep (Marathi, regional edition); (c) the Letter of Offer (the "LoF") along with Form of Acceptance-cum-Acknowledgement dated July 12, 2021; (e) the Offer Opening Advertisement and Corrigendum to the Detailed Public Statement published on July 19, 2021 in the same newspapers where DPS was published (the "Offer Opening Public Announcement and Corrigendum").

Capitalised terms used but not defined in this Post Offer Advertisement shall have same meaning assigned to such terms in the LOF.

The Shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following information relating to the Offer:

1.	Name of the Target Company	White Organic Retail Limited
2.	Alexander Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna Ann	Acquirer: Suumaya Retail Limited  PAC: Suumaya Industries Limited (formerly known as Suumaya Lifestyle Limited)
3.	Name of Manager to the Offer	Fedex Securities Private Limited
4.	Name of the Registrar to the Offer	Link Intime India Private Limited
5.	Offer Details	
0.12	(a) Date of Opening of the offer	Tuesday, July 20, 2021
	(b) Date of Closure of the offer	Tuesday, August 03, 2021
6.	Date of payment of consideration	Not Applicable, since no Equity Shares were tendered in the Open Offer. H

# Date of payment of cons Details of Acquisitions

Sr. No.	Particulars		ed in the ocument	Act	uals
7.1.	Offer Price	Rs. 37.45 per	Equity Share	Rs. 37.45 Pe	r Equity Share
7.2.	Aggregate number of Equity Shares tendered	up to 28	,36,080 <sup>®1</sup>	N	IL <sup>or</sup>
7.3.	Aggregate number of Equity Shares accepted	up to 28	,36,080 <sup>pl</sup>	N	L <sup>oo</sup>
7.4.	Size of the Offer (Number of Equity Shares multiplied by offer price per Equity Share)	Rs. 10,62	2,11,196 <sup>(3)</sup>	N	IL <sup>oo</sup>
7.5.	Shareholding of Acquirer before Share Purchase Agreement ("SPA") and Public Announcement (No. & %)	- N	IL	:N	IIL®
7.6.	Equity Shares Acquired by way of Share Purchased Agreement ("SPA")  Number  Wo of Fully Diluted Equity Share Capital	1011731741733	,000 <sup>kt</sup>	750000000000000000000000000000000000000	),000 <sup>∞</sup> 01 %
7.7.	Equity Shares Acquired by way of Open Offer  Number  Graph of Fully Diluted Equity Share Capital	up to 28,36,080 <sup>30</sup> 26.00 %		N	IL <sup>oc</sup>
7.8.	Equity Shares Acquired after Detailed Public Statement  Number of Shares Acquired  Price of the Shares Acquired  of the Shares Acquired	N	NIL NIL		IIL
7.9.	Post Offer shareholding of Acquirer  Number  Mor Fully Diluted Equity Share Capital	0.000,007,000	,080 <sup>on</sup> 01%		000 <sup>0+0</sup> 01%
7.10.	Pre and Post Offer shareholding of Public Shareholders	Pre - Offer	Post - Offer	Pre - Offer	Post - Offer
	Number     % of Fully Diluted Equity Share Capital	49,08,000 44.99 %	20,71,920 18.99%	49,08,000 44.99 %	49,08,000 44,99 %

(a) No Equity Shares have been tendered in this Open Offer. The same has been certified by the Registrar to the Open Offer vide its certificate dated August 04, 2021.

(b) Assuming full acceptance of the Offer.
(c) The Acquirer has entered into the SPA with the Seller, pursuant to which the Acquirer has agreed to acquire 60,00,000 (Sixty Lakhs) Equity Shares and as on the date of this Post Offer Advertisement, the same is in the

process of transfer.

(d) Assuming full acceptance of offer of 28,36,080 (Twenty-Eight Lakhs Thirty-Six Thousand and Eighty) Equity Shares and acquisition through SPA of 60,00,000 (Sixty Lakhs) Equity shares aggregating upto 55.01% of the Expanded Voting Share Capital of the Target Company.

3. The Acquirer along with its Directors and PAC severally and jointly accept full responsibility for the information.

contained in this Post Offer Advertisement and also for the obligations under SEBI (SAST) Regulations.

9. A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the website of SEBI (www.sebi.gov.in), BSE Limited.

(www.bseindia.com), the Target Company (www.whiteorganics.co.in), Manager to Offer (www.fedsec.in) & Registrar to Offer (www.linkintime.co.in).

ISSUED BY THE MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRER



financialexp

FEDEX SECURITIES PRIVATE LIMITED

B 7, 3rd Floor, Jay Chambers, Dayaldas Road, Vile Parle (East),
Mumbai-400057, Maharashtra, India. | Tel No.: +91 81049 85249 | Fax No.: 022 2618 6966
E-mail: mb@fedsec.in | Website: www.fedsec.in | Contact Person: Yash Kadakia
SEBI Registration Number: INM000010163 | Investor Grievance E-Mail: mb@fedsec.in

Date : August 05, 2021 Place : Mumbai



# SUNDARAM FINANCE HOLDINGS

# STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30.06.2021

		Standa	alone		Consolidated				
Particulars		Quarter ended		Year ended	7/	Quarter ended		Year ended	
r articulars	30.06.2021	31.03.2021	30.06.2020	31.03.2021	30.06.2021	31.03.2021	30.06.2020	31.03.2021	
	(Unaudited)	(Audited) (Refer Note 5)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited) (Refer Note 5)	(Unaudited)	(Audited)	
Total income from operations	999.89	1422.70	883.90	3768.46	1843.07	1842.75	1511.41	5941.09	
Net Profit / (Loss) before Tax	630.38	989.42	301.09	1764.95	808.92	670.80	324.94	1422.77	
Net Profit / (Loss) after Tax	513.28	744.49	284.78	1454.79	3157.77	3682.34	(988.64)	7387.88	
Total comprehensive income/(loss) for the period (comprising profits / (loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	18124.12	27136.61	(10552.27)	19212.71	20727.43	30610.50	(12368.23)	24407.76	
Equity Share Capital	11105.19	7555.19	7555.19	7555.19	11105.19	7555.19	7555.19	7555.19	
Reserves (Excluding Revaluation reserves)				134957.83				211947.77	
Earnings Per Share (Basic & Diluted) Face Value of ₹5/- each) (not annualised)	0.25	0.49	0.19	0.96	1.52	2.44	(0.65)	4.89	

The above results do not include any extraordinary item.

Notes:

Chennai

05.08.2021

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the National Stock Exchange website (URL:www.nseindia.com) and on the Company's website (www.sundaramholdings.in).
- During the quarter ended June 30, 2021, the Company has alloted of 7,10,00,000 Equity Shares, at an issue price of ₹50 per Equity Share, including a premium of ₹45 per Equity
  Share to the eligible applicants in the Rights Issue. The said shares rank pari-passu in all respects including dividend entitlement. Pursuant to this, the paid up share capital of the
  company stands increased from ₹7555.19 lakhs to ₹11105.19 lakhs.
- 3. The Covid -19 pandemic has affected several countries across the world, including India. The pandemic and consequent lockdown imposed by the government authorities has considerably impacted the business operations of our associate companies, including their subsidiaries, which in turn, has impacted the financial results of the Company. Though there have been signs of a reasonable recovery during June 2021 in the automotive sector, given the dynamic and evolving nature of the pandemic, a full recovery to the levels of the pre-COVID era is unlikely in the near term. The company will however continue to closely monitor any material changes to future economic conditions and take appropriate risk mitigation measures.
- 4. The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at the respective meetings held on August 5,2021.
- The figures for the quarter ended March 31,2021 are the balancing figures between the audited figures for the respective financial years and the published unaudited year-to-date figures for the period ended 31" December 2020.

By Order of the Board T. T. Srinivasaraghavan Chairman

# SUNDARAM FINANCE HOLDINGS LIMITED

CIN: L65100TN1993PLC025996 pad. Chennai – 600 002. Tel: 91 44

Regd. Office: 21, Patullos Road, Chennai – 600 002. Tel: 91 44 28521181 Fax: 91 44 28586641 E-Mail: investorservices@sundaramholdings.in Website: www.sundaramholdings.in

# CAPLIN POINT LABORATORIES LIMITED

CIN - L24231TN1990PLC019053

Registered office: 3rd Floor, "Ashvich Towers", No.3, Developed Plots Industrial Estates, Perungudi, Chennai 600 096.

Phone Nos.044-2496 8000, Fax No.044-28154952.

Website - www.caplinpoint.net, email ID-info@caplinpoint.net

# EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE 2021 PREPARED IN COMPLIANCE WITH INDIAN ACCOUNTING STANDARDS

(Rs. in Crs)

Consolidated

		Thre	Year ended			
SI.	Particulars	30.06.2021	31.03.2021		31.03.2021	
No.		(1)	(2)	(3)	(4)	
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	
1.	Total Revenue from Operations	300.44	278.71	240.08	1,061.29	
2.	Net Profit / (Loss) for the period (beforeTax, Exceptional and / or Extra ordinary items)	89.52	84.97	68.62	313.62	
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extra ordinary items)	89.52	84.97	68.62	313.62	
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extra ordinary items)	71.53	67.92	54.55	251.44	
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	76.47	70.14	54.54	244.28	
6.	Equity Share Capital	15.13	15.13	15.13	15.13	
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet ofthe previous year		-	=	1,170.69	
8.	Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinued operations)					
	1. Basic: (in Rupees)	9.37	8.78	7.21	32.03	
	2. Diluted: (in Rupees)	9.25	8.64	7.15	31.71	
			Not Annualis	ed)	(Annualised)	

# Note:

Place: Chennai

Date: August 5, 2021

1.Key numbers of Standalone Results are as under:

(Rs. in Crs)

rintely manifester of etamations recounts are as a	ndor.			(Rs. in Crs)
	Thre	e Months e	nded	Year ended
Dantiaulana	30.06.2021	31.03.2021	30.06.2020	31.03.2021
Particulars	(1)	(2)		(4)
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
Total Revenue from Operations	127.50	122.88	119.73	482.68
Profit Before Tax	69.41	44.64	56.02	209.94
Profit After Tax	54.55	31.49	42.02	156.23

- 2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter Ended Financial Results are available on the Website of Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com), the National Stock Exchange (www.nseindia.com) and on the Company's Website (www.caplinpoint.net).
- The Unaudited financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on 5<sup>th</sup> August, 2021.
- 4. The Board of Directors at their meeting held on 6<sup>th</sup> May, 2021 declared an interim dividend of Rs.1.50 per equity share (75%) for the financial year 2020-21 and was paid to the shareholders. The Board of Directors at their meeting held today have recommended a final dividend of Rs. 1.50/- per equity share (75%) of Rs.2/- each for the financial year 2020-21 which is subject to the approval of the shareholders at the ensuing Annual General Meeting. If approved, the total dividend for the financial year 2020-21 would amount to Rs. 3/- per equity share (150%) per equity share of Rs 2/- each.

For Caplin Point Laboratories Limited
Dr Sridhar Ganesan
Managing Director



में प्रावधान है। एनसीएफएसई के

िलए एक व्यापक कार्यनीति

दस्तावेज तैयार किया गया है।

प्रधान ने कहा कि राज्य पहले

जिला स्तरीय परामर्श प्रक्रिया,

मोबाइल ऐप सर्वेक्षण और एनईपी

के अनुसार चिह्नित विषयों में

फोकस ग्रुप द्वारा स्थिति पत्र तैयार

किए जाने आदि के माध्यम से

मसौदा पाठयक्रम संबंधी ढांचा

तैयार करेंगे। इसमें संबंधित राज्यों

के सांस्कृतिक और भौगोलिक

सरोकरों को ध्यान में रखा जाएगा।

यह पछे जाने पर कि क्या देश की

शिक्षा प्रणाली को कुशल बनाने के

जनसत्ता ब्यूरो

बताया कि देश में एक समान शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में प्रावधान किया गया है और इसके तहत सभी हितधारकों से चर्चा करने के बाद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) एक नया और व्यापक राष्ट्रीय स्कुल शिक्षा पाठ्यक्रम संबंधी (एनसीएफएसई) तैयार करेगी।

राज्यसभा में एक सवाल के

लिए सरकार भारतीय शिक्षा सेवा आरंभ कर रही है. प्रधान ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। हरियाणा लेदर केमिकल्स लि.

पंजी. कार्यालयः 72-77. एचएसआईडीसी इंडस्ट्रियल, ईस्टेट, हांसी रोड, जिन्द, हरियाणा कॉर्पो. कार्यालय: 1405 बी, सिग्नेचर टावर्स, साउथ सिटी-1, गुड़गाँव-122001, एच.आर. Ph.: +91 124 2739000 CIN: L74999HR1985PLC019905

भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व एव उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक गरुवार. अगस्त. 2021 को 02.30 अप. में कम्पनी के कॉर्पोरेट कार्यालय प आयोजित की जाएगी।

अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन प्रॉविजनल वित्तीय परिणामों पर विचार कर अभिलेख में लिये जाएंगे तथा शेयरधारकों के 36वीं वार्षिक साधारण सभा तथा 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिये त्ममे मंबंधित मामले पर विचार किये जाएंगे। सचना में शामिल जानकारी कम्पनी की वेबसाईट अर्थात्

www.leatherchem.com तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। हरियाणा लेदर केमिकल लि. के लिर्

कम्पनी सचिव



नई दिल्ली-110008 ई-मेल: mail@apisindia.com वेबसाइट: www.apisindia.com

दायित्व और उदघाटन अपेक्षा) विनियम, 2015 वे विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के का लेन-देन करने के लिए विचार विमर्श किया

अनुमोदन करने और रिकॉर्ड में लेने के लिए। अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य व्यवसाय। इसके अलावा उपरोक्त के प्रयोजन के लिए और करने के बारे में सूचना (अर्थात गुरुवार, 01 जुलाई, 2021 से बोर्ड की बैठक की तारीख के अड़तालीस (48) घंटे बाद तक। कंपनी की प्रतिभतियों में लेनदेन के लिए स्टॉक एक्सचेंज को पहले ही

www.apisindia.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट जैसे बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

एपिस इंडिया लिमिटेड के लिए हस्ता/ अमित आनंद (प्रबंध निदेशक) डीआईएन : 00951321 थान : नई दिल्ली

FRUITION VENTURE LIMITED CIN: L74899DL1994PLC058824 Regd. Office: 21-A, 3rd Floor Savitri Bhawan, Commercial Complex Mukherjee Nagar, New Delhi - 110009 Tel: +91-11-27468600 Website: www.fvl.co.in;

Pursuant to clause 41 of the listing Agreement, Notice is hereby given that the Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, the 12th day of August, 2021 at A-21, 3th Floor, Savitri Bhawan, Commercial Complex, Mukherjee Nagar, New Delhi - 110009 to inter alia consider and approve the unaudited financial results of the Company for the quarter

PUBLIC NOTICE

This is to inform the General Public that original Share Certificate No 01, Distinctive Numbers from 1 to 8000 and Share Certificate no 03 Distinctive Numbers from 10001 to 1402000 of Mr. Harish Chander Chowdhary a member of Eppeltone Engineers Private Limited. Share Certificate No 02 Distinctive Numbers from 8001 to 10000 of Mr. Amit Chowdhary a member of Eppeltone Engineers Private Limited. Share Certificate number 04 Distinctive Numbers from 1402001 to 2547000 and Share Certificate no 05 Distinctive Numbers from 2547001 to 3988000 of Mr. Rohit Chowdhary a member of Eppeltone Engineers Private Limited, having Registered office address at A-57 Defence Colony, New Delhi DI -110024 have misplaced their respective Share Certificates. The above members of the company have applied for duplicate shares. The company hereby invites claims and objections from claimants/objectors for issuance of duplicate certificates within the period of 14 days from the publication of this notice with copies of such documents and other proofs in support of his/hen/their claims / objections for issuance of duplicate certificate to the undersigned, Director of Eppeltone Engineers Private Limited. If no claims / objections are received within the period prescribed above the Company shall be free to issue duplicate Share Certificates in such

Date : 06-08-2021

Place: New Delhi



सूचना सेबी (एलओडीआर) 2015 के नियम 47 के अनुसार एतदहारा सचना दी जाती है कि महानग टेलीफोन निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक **शुक्रवार, 13 अगस्त, 2021** को होगी जिसमें अन्य बातों के साथ—साथ 30 जून, 2021 को समान्त होने वाले तिमाही के लिए कंपनी के अनंकेक्षित पनरीक्षित वित्तीव परिणामों पर विचार होगा और रिकॉर्ड में लिया जायेगा । यह भी सुर्चित किया जाता है कि एमटीएनएस की ट्रेडिंग विंडो 01.07.2021 से 15.08.2021 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगी।

यह सूचना वेबसाइट www.mtnl.net.in पर भी अपलोड की गयी है । कृते महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड स्थानः नई दिल्ली (एस.आर. सयाल), कंपनी सचिव

# केन-बेतवा परियोजना के पहले चरण को पर्यावरण मंजूरी मिली

के प्रथम चरण के लिए पर्यावरण मंजूरी मिल गई है। दूसरे चरण के लिए पर्यावरण मंजूरी मिल गई है। दूसरे चरण को चरण के लिए जल्द पर्यावरण मंजूरी मिलने की उम्मीद है। लेकर भारतीय वन्य जीवन संस्थान ने एक समन्वित केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा योजना तैयार की है।

धामपुर स्पेशलिटी शुगर्स लिमिटेड

सीआईएन: L24112UP1992PLC014478 ग्राम पत्सावाला, तहसील धामपुर, जिला विजनौर (यूपी)- 246761

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्धत

दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 वे

विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसा

अन्य बातों के साथ-साथ 30 जून, 2021 को समाप्त

तिमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों

(स्टैण्डएलोन तथा समेकित) पर विचार तथा अनुमोदन

एवं अध्यक्ष की अनुमित से अन्य मामलों पर विचार करने के लिए धामपुर स्पेशलिटी शुगर्स लिमिटेड के

निदेशक मंडल की बैठक शनिवार, 14 अगस्त, 2021

को 2.00 बजे अप. इसके कॉर्पोरेट कार्यालय 24. स्कल

लेन निकट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिल्ली-110001 पर

आयोजित की जायेगी। यह सूचना बीएसई लिमिटेड,

जहां कम्पनी के शेयर सुचीबद्ध हैं, की वेबसाइट

(www.bseindia.com) तथा कम्पनी की

वेबसाइट (www.sugarindia.com) पर भी

स्थान : नई दिल्ली

WISEC GLOBAL LIMITED

NH-II, 2ND Floor, C -Block Community

Center, Naraina Vihar, New Delhi-110028

NOTICE

Pursuant to the provision of Clause 49 (I) (C) of

the Listing Agreement, notice is hereby given

that a meeting of the Board of Directors of the

Company will be held on Thursday, 12th

August, 2021, to inter-alia, consider, approve

and take on record the un audited result for the

कॉर्पोरेट मर्चेन्ट्स बैंकर्स लिमिटेड

पंजी.कार्या.: युजी-24, विश्वदीप टावर, डिस्ट्रिक्ट

सेन्टर, जनकपरी, नई दिल्ली-110058

CIN: L74899DL1994PLC061107

E-mail ID: cmbldelhi@gmail.com

Ph. No. 91-11-65382244

Website: www.cmbl.co.in

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा

विनियमन, 2015 के विनियमन 29 एवं विनियमन 33 के

साथ पठित विनियमन 47 के अनुपालन में मै. कॉर्पीरेट

मर्चेन्ट बैंकर्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की एक बैठक

शुक्रवार, 13 अगस्त, 2021 को पंजी. कार्यालय में 3.30

बजे अप. में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों

के साथ 30 जून, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष एवं तिमाही

के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर

विस्तृत विवरण कम्पनी की वेबसाईट

www.cmbl.co.in तथा साथ ही बीएसई लिमिटेड

एवं एमएसईआई लिमिटेड जहां कम्पनी के शेयर

सूचीबद्ध हैं, की वेबसाईट http://www.

bseindia.com एवं www.msei.in पर उपलब्ध

जगत ट्रेडिंग एन्टरप्राइजेज लिमिटेड

सीआईएन : L74999DL1982PLC014411

पंजीकृत कार्यालय : 208, मैग्नम हाउस-II,

करमपुरा कम्युनिटी सेंटर,

नई दिल्ली-110015

वेबसाइट : www.jtel.co.in,

ई-मेल : jagattradingenterpriseslimited@gmail.com,

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम,

2015 के प्रावधानों के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ

30 जून, 2021 को समाप्त तीन माह/तिमाही हेतु कम्पनी

के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने हेत्

कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शनिवार 14

अगस्त, 2021 को आयोजित की जायेगी। सेबी

(इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) के संदर्भ में एवं इन्साइडर

ट्रेडिंग की रोकथाम हेतु कम्पनी की आन्तरिक आचार

संहिता के अनुपालन में कम्पनी की प्रतिभृतियों में ट्रेडिंग

हेतु ट्रेडिंग विंडो 1 जुलाई, 2021 से सोमवार, 16 अगस्त,

कथित सुचना कम्पनी की वेबसाइट www.jtel.co.in

तथा साथ ही एमएसईआई की वेबसाइट www.msei.in

IEC EDUCATION LIMITED

CIN: L74899DL1994PLC061053

Regd. Off.: M-92, Connaught Place,

as well as other case information is available on

CNR NO: PBLD03-001807-2019

Next date: 08-10-2021

http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana

Kotak Mahindra Bank

कम्पनी सचिव एवं

एसीएस : 14371

2021 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेगी।

से भी एक्सेस की जा सकती है।

तिथि : 05.08.2021

ce&district=ludhiana

कॉर्पोरेट मर्चेन्ट बैंकर्स लिमिटेड के लिये

पार्णे वेंकटेश्वर रेडी

DIN: 06446233

विचार तथा अनुमोदन किये जायेंगे।

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 05.08.2021

For Wisec Global Limited

Rakesh Rampal

Whole Time Director

quarter ended on 30th June 2021.

Date: 05/08/2021

Place: New Delhi

तिथि : 04 अगस्त, 2021

कते धामपर स्पेशलिटी शुगर्स लिमिटेड

कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

अनीश जैन

सरकार ने गुरुवार को कहा कि केन-बेतवा परियोजना में प्रश्नकाल में कहा कि केन-बेतवा परियोजना के प्रथम (भाषा)

ASPIRE . INNOVATE . ACHIEVE CIN: L27109UP1963PLC002931

Regd. Office: Advanced Manufacturing & Technology Centre, NH-25A, Sarai Shahjadi, Lucknow, Uttar Pradesh 227101, India Ph: +91522 7111017, Fax: +91522 7111020, Web: www.ptcil.com

# NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47(1) read with regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, meeting of the Board of Directors of PTC Industries Limited will be held on Friday, August 13, 2021 at 03:30 P.M through audio/video - conferencing facility to, inter-alia, consider and approve, the un-audited financial result for the guarter ended on June 30, 2021.

Further this information is also available on the website of the Company ie, www.ptcil.com and website of the Stock exchange ie www.bseindia.com.

For PTC Industries Limited

Place: Lucknow Date: 05.08.2021

Company Secretary & Compliance Officer

(Pragati Gupta Agarwal)

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम) कारपोरेट आईडी संख्याः UA40109UP2001SGC025867/2358 कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विo्विठखंठ (दक्षिण) 18-पूर्वी नहर मार्ग, देहरादून। दूरभाषः / फैक्सः 0135-2651085 निविदा सचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण) के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों हेतु विद्युत निरीक्षक द्वारा प्रदत्त प्रमाण विद्युत कार्यों के लिए प्रमाण पत्र श्रेणी 'क' (नवीनीकरण आवेदन तीन माह पुराना न हो नवीनतम आयकर विवरणी जी.एस.टी. / ई.पी.एफ. / ई.एस.आई. पंजीकरण का किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी सार्वजनिक उपक्रम द्वारा संबंधित कार्यो। का अनुभव/संतोषजनक प्रमाण पत्र जोकि पांच वर्ष पुराना ना हो, निविदाताओं से मृहरबन्द निविदायें दो भागों में आमंत्रित की जाती हैं। निविदा के प्रथम भाग में निर्धारित धरोहर राशि जो कि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक / डाकघर की एफ डी आर सी डी आर 🖊 के रूप में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण), 18 ई.सी. रोड, देहरादन के पक्ष में बंधक हो तथा संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न होने चाहिए एवं द्वितीय भाग में दरें जो कि छः माह तक वैध हों। निविदा का प्रथम भाग दिनांक 26.08.2021 को 15.00 बजे खोला जायेगा। योग्य/उपयुक्त निविदाओं का द्वितीय भाग समस्त निविदाकर्ताओं के सामने खोला जायेगा। निविदा प्रपन्न किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 25.08.2021 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से निविदा प्रपत्र मुल्य नगद (अप्रतिदेय) जमा कर क्रय किये जा सकते हैं। धरोहर राशि के लिये रू. 100 के स्टाम्प पेपर पर घोषेणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। निविदा खोलने के दिन किसी कारणवश कार्यालय बन्द रहता है तो निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेंगी अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये समस्त अथवा किसी भी निविदा को निरस्त कर सकते हैं। निविदा की अन्य शर्ते बीओ क्या के अनुसार मान्य होंगी।

निविदा संख्या	कार्य का विवरण	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू०)	निविदा प्रपत्र खरीदने की तिथि	निविदा जमा करने की तिथि एवं समय	धरोहर राशि (रू०)
	विद्युत वितरण खण्ड(दक्षिण) देहरादून के नियंत्रणाधीन उपखण्ड टर्नर रोड के टर्नर रोड अनुभाग के अंतर्गत अधिक भारित चल रहे 11 नग परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि किये जाने का कार्य।	500.00 +GST	25.08.2021	26.08.2021 14:00 बजे	शून्य

अधिशासी अभियन्ता वि०वि०ख० (दक्षिण), देहरादून। पत्रांक: 807 / वि0वि0खं0(द0) / टी.-07 दिनांक: 05.08.2021 किसी भी विद्युत समस्या के लिए सम्पर्क टोल फ़ी नं० 18004190405 राष्ट्रहित में बिजली बचायें

POST OFFER ADVERTISEMENT UNDER REGULATION 18(12) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011. AS AMENDED WITH RESPECT TO THE OPEN OFFER TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

# WHITE ORGANIC RETAIL LIMITED

Registered Office: 312A, Kailas Plaza Vallabh Baug Lane, Ghatkopar (East), Mumbai 400077, Maharashtra, India. Tel: +91-22-25011983; Telefax: +91-22-25011984; Email: info@whiteorganics.co.in; Website: www.whiteorganics.co.in

Open offer for acquisition of up to 28,36,080 (Twenty-Eight Lakhs Thirty-Six Thousand and Eighty) fully paid-up equity shares of face value of Rs. 10 /- (Rupees Ten Only) each ("Equity Shares") representing 26.00% (Twenty-Six percent) of the Expanded Voting Share Capital at a price of Rs 37.45/- (Rupees Thirty-Seven and Forty-Five Paise Only) per Equity Share payable in cash of White Organic Retail Limited ("WORL" or "the Target Company" or "TC"), from the Shareholders of the Target Company by Suumaya Retail Limited (hereinafter referred to as "Acquirer") along with Suumaya Industries Limited (formerly known as Suumaya Lifestyle Limited) (hereinafter referred to as "PAC") ("Offer" or "Open Offer") pursuant to and in accordance with Regulation 3(1) and 4 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendment thereto ("SEBI (SAST) Regulations").

This Post Offer Advertisement ("Post-Offer Advertisement") is being issued by Fedex Securities Private Limited (formerly Known as Fedex Securities Limited), the Manager to the Offer ("Manager to the offer"), on behalf of Acquirer and PAC, in connection with the Offer made by the Acquirer along with PAC, in compliance with Regulation 18(12) of the SEBI (SAST) Regulations.

This Post Offer Advertisement is to be read in continuation of, and in conjunction with: (a) the Public Announcement (the "PA") dated May 21, 2021; (b) the Detailed Public Statement (the "DPS") which was published on May 28, 2021 in Financial Express (English, all editions), Jansatta (Hindi, all editions), and Mumbai Lakshadeep (Marathi, regional edition); (c) the Letter of Offer (the "LoF") along with Form of Acceptance-cum-Acknowledgement dated July 12, 2021; (e) the Offer Opening Advertisement and Corrigendum to the Detailed Public Statement published on July 19, 2021 in the same newspapers where DPS was published (the "Offer Opening Public Announcement and Corrigendum").

Capitalised terms used but not defined in this Post Offer Advertisement shall have same meaning assigned to such terms in the LOF.

The Shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following information relating to the Offer

 Name of the Target Company White Organic Retail Limited बोर्ड के आदेशानुसार Acquirer: Suumaya Retail Limited कृते जगत टेडिंग एन्टरप्राइजेज लिमिटेड Name of the Acquirer and PAC PAC: Suumaya Industries Limited (formerly known as Suumaya Lifestyle निर्मल कुमार तपाड़िया Fedex Securities Private Limited Name of Manager to the Offer Name of the Registrar to the Offer Link Intime India Private Limited अनुपालन अधिकारी Offer Details (a) Date of Opening of the offer Tuesday, July 20, 2021 (b) Date of Closure of the offer Tuesday, August 03, 2021 Date of payment of consideration | Not Applicable, since no Equity Shares were tendered in the Open Offer.

7. Details of Acquisitions

Regd. Off.: M-92, Connaught Place,		otalio oi rioquioiliono				
New Delhi-110001  Website: www.iecgroup.in	Sr. No.	Particulare		ed in the ocument	Act	uals
Email: cs@iecgroup.in, Ph: 011-69111192	7.1.	Offer Price	Rs. 37.45 pe	Equity Share	Rs. 37.45 Pe	r Equity Share
NOTICE Pursuant to Regulation 29, read with Regulation	7.2.	Aggregate number of Equity Shares tendered	up to 28	,36,080 <sup>(6)</sup>	N	L <sup>M</sup>
47 of the SEBI (Listing Obligations and	7.3.	Aggregate number of Equity Shares accepted	up to 28	,36,080 <sup> s </sup>	N	L
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that the 2nd meeting of		Size of the Offer (Number of Equity Shares multiplied by offer price per Equity Share)	Rs. 10,6	2,11,196*	N	IL <sup>M</sup>
the Board of Directors of the Company for the Financial Year 2021-22 is scheduled to be held on Saturday, August 14, 2021 at E-216, East of Kailash, New Delhi-110065 at 4.00 p.m. inter	7.5.	Shareholding of Acquirer before Share Purchase Agreement ("SPA") and Public Announcement (No. & %)	N	IIL	1	IL.
alia, to consider, approve and take on record Unaudited Quarterly Financial Results (standalone and consolidated, IND-AS compliant) along with Limited Review Report	7.6.	Equity Shares Acquired by way of Share Purchased Agreement ("SPA")  Number  Wo of Fully Diluted Equity Share Capital	10.000.000	0,000 <sup>⊜</sup> 01 %		0,000 <sup>(c)</sup>
for the Quarter ended June 30, 2021. The said notice may be accessed on the Company's website at www.iecgroup.in and also on the website of the stock exchange at	7.7.	Equity Shares Acquired by way of Open Offer  Number  Sof Fully Diluted Equity Share Capital		,36,080°°	N	L¤
www.bseindia.com  By order of the Board  For IEC EDUCATION LIMITED  Sd/-  Navin Gupta  Place: New Delhi  Managing Director	7.8.	Equity Shares Acquired after Detailed Public Statement  Number of Shares Acquired  Price of the Shares Acquired  of the Shares Acquired	N	IIL	٨	IIL
Dated: 05.08.2021 DIN: 00097128	7.9.	Post Offer shareholding of Acquirer  Number  More Fully Diluted Equity Share Capital		,080 <sup>10</sup>	1,600,000	000 <sup>(6.6.0)</sup>
In The Court Of Ms. Divya Sharma	7.10.	Pre and Post Offer shareholding of Public Shareholders	Pre - Offer	Post - Offer	Pre - Offer	Post - Offer
JMIC Ludhiana next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on		Number     % of Fully Diluted Equity Share Capital	49,08,000 44.99 %	20,71,920 18.99%	49,08,000 44.99 %	49,08,000 44.99 %

(a) No Equity Shares have been tendered in this Open Offer. The same has been certified by the Registrar to the Open Offer vide its certificate dated August 04, 2021. (b) Assuming full acceptance of the Offer.

(c) The Acquirer has entered into the SPA with the Seller, pursuant to which the Acquirer has agreed to acquire 60.00.000 (Sixty Lakhs) Equity Shares and as on the date of this Post Offer Advertisement, the same is in the process of transfer.

d) Assuming full acceptance of offer of 28,36,080 (Twenty-Eight Lakhs Thirty-Six Thousand and Eighty) Equity Shares and acquisition through SPA of 60,00,000 (Sixty Lakhs) Equity shares aggregating upto 55.01% of the Expanded Voting Share Capital of the Target Company. The Acquirer along with its Directors and PAC severally and jointly accept full responsibility for the information

contained in this Post Offer Advertisement and also for the obligations under SEBI (SAST) Regulations. A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the website of SEBI (www.sebi.gov.in), BSE Limited (www.bseindia.com), the Target Company (www.whiteorganics.co.in), Manager to Offer (www.fedsec.in) & Registrar to Offer (www.linkintime.co.in).

ISSUED BY THE MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRER FEDEX SECURITIES PRIVATE LIMITED

B 7, 3rd Floor, Jay Chambers, Dayaldas Road, Vile Parle (East), Mumbai-400057, Maharashtra, India. | Tel No.: +91 81049 85249 | Fax No.: 022 2618 6966 E-mail: mb@fedsec.in | Website: www.fedsec.in | Contact Person: Yash Kadakia SEBI Registration Number: INM000010163 | Investor Grievance E-Mail: mb@fedsec.in

Date: August 05, 2021

# मान एल्युमिनियम लिमिटेड

पंजीकृत. कार्यालयः 4/5, फर्स्ट फ्लोर, असफ अली रोड़, नई दिल्ली-110002 CIN: L30007DL2003PLC214485 फोन: 011-40081800. वेबसाइटः www.maanaluminium.com, ईमेलः info@maanaluminium.in

30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों के विवरण का उद्धरण (क. लाखों में ईपीएस को छोडकर)

6286			समाप्त ।तमाहा				
<b>क.</b> स.	विवरण	30 जून 2021	31 मार्च 2021	30 जून 2020	31 मार्च 2021		
***		(अनंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अंकेक्षित)		
1	प्रचालन सकल से कुल आय	12,070	16,327	4,993	40,288		
2	अपवादात्मक मदों और कर से पहले शुद्ध लाभ	688	714	215	1,988		
3	कर से पहले अवधि के लिए शुद्ध लाम	688	714	215	1,988		
4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ	520	526	161	1,480		
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय	520	507	161	1,460		
6	इक्विटी शेयर पूंजी	676	676	676	676		
7	प्रत्येक रू. 10/- से प्रति शेयर आय						
	बेसिक व डायल्यूटिड ईपीएस	7.69	7.78	2.38	21.89		
	1000 Million 10						

05 अगरत, 2021 को आयोजित बैठक में 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए उपरोक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखा समिति द्वारा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

 सेबी (सुचियन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दर्ज की गई उपरोक्त वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। सम्पूर्ण वित्तीय परिणाम www.bseindia.com, www.nseindia.com और www.maanaluminium.com पर उपलब्ध है।

> कृते और बोर्ड की ओर से हस्ता/-

स्थानः नई दिल्ली तिथिः 05 अगस्त, 2021

(रविन्द्र नाथ जैन) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक DIN: 00801000

**पंजीकृत एवं कॉरपोरेट कार्यालय :** येस बैंक हाउस, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, संताक्रुज (ईस्ट), मुम्बई 400055. YES // BANK ई मेल communications@yesbank.in, वेबसाईट : www.yesbank.in CIN: L65190MH2003PLC143249

REF No. YBL/ENF/DEL/RN/2021-2022/227 यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित ऋणीयों/ जमानतदारो/ बंधककर्ताओं जिन्होनें बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं के मूलधन एवं ब्याज का भुगतान करने में चुक की है तथा जिनके खाते को भारतीय रिजर्व बँक की आस्तियों के वर्गीकरण हेतु मार्ग निर्देशिका के अनुसार उनके खाते के नियमित न होने के कारण गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जा चका है। उनकों वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत उनके अंतिम ज्ञात पते पर नोटिस निर्गमित किये थे तथा उन्हें इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जा रहा है।

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रकाशन हेतु सूचना

35	ऋणी का नाम	जमानतदार(रों) एवं बंधककर्ता (ओं) का नाम	बंधक अचल सम्पत्तियों का विवरण	13(2) सूचना की दिनांक	एनपीए की दिनांक	कुल बकाया
	1. मैसर्स अमर चंद गुप्ता एण्ड सन्तर ('कार्ण') जीवी उसके	<ol> <li>श्रीमती संगीता गुप्ता ('बंधककर्ता एवं जमानतदार'), पता - ए-1, द्वितीय तल,</li> </ol>	1. बन्धककर्ता : संगीता गुप्ता, सम्पूर्ण दिवीय कल सम्मानि में 1. क्लॉक-ग	30.07.2021	19.06.2021	क. 3,16,60,436/- (रूपचे तीन करोड
	प्रोपसईटर, पता - 32, बाजार लेन, भोगल, नई दिल्ली- 110014 यहां भी- 39-ए, जंगपरा रोड.	जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली- 110014, यहां भी: 39-ए, जंगपुरा रोड्, भोगल, नई दिल्ली- 110014 2. श्री सुधीर कुमार गुप्ता, ('जमानतदार'), पता- ए-1, द्वितीय तल, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली- 110014	क्षेत्रफल 304 वर्गगज जो जंगपुरा एक्स With One servant quarter wit winding, with super-structu	h 1 WC in re standin	the stairs g therein,	सोलह लाख साठ हजार चार सौ छत्तीस मात्र) दिनांक 30 जून,

उपर्युक्त ऋणियों तथा उनके प्रतिनिधियों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं (जो भी लागू होते है) से बकाया राशि का इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 60 दिवस के भीतर भूगतान करने की मांग की जाती है जिसमें चूक होने पर 60 दिनों के उपरान्त सरफेसी अधिनियम की धारा 13 उपधारा (4) के अंतर्गत कदम उठाये जायेंगे। रोहित निझावन, उपाध्यक्ष हस्ताक्षर/- (प्राधिकृत अधिकारी) वास्ते चेस बेंक लिमिटेड दिनांक: 06.08.2021 5ए/15, तिलक नगर, सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के पास, स्थानः दिल्ली नई दिल्ली- 110018, फोन: +91 9350741339, 011-40154020/21

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

( तात्कालिक कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि. विदित CIN: L65110TN2014PLC097792

पंजीकृत कार्यालयः केआरएम टॉवर्स, 8वॉ तल, हैरिग्टन रोड, चेटपेत, चेन्नई-600031

टेली.: +91 44 4564 4000. फैक्स: +91 44 4564 4022

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सुचना निम्नलिखित ऋणधारकों तथा सह–ऋणधारकों ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तात्कालिक कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमि. मे

समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि.) से नीचे वर्णित प्रतिभृति ऋण प्राप्त की थी। नीचे वर्णित ऋणधारकों का ऋण संबंधित सम्पत्तियों की गिरवी द्वारा प्रतिभृत है। चुंकि वे संबंधित ऋण अनुबंधों के नियमों एवं शर्तों का पालन करने में विफल रहे तथा उनका ऋण अनियमित हो गया है अतः भा. रि.बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार उनकी ऋण को एनपीए वर्गीकृत किया गया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तात्कालिक कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड. आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में समामेलित) तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमि.) को उनके द्वारा देय राशि संबंधित सूचनाओं के अनुसार वर्णित है जिसका विशेष रूप से विवरण उक्त राशि पर आगे के लागू होने वाले ब्याज जिसकी वसूली संबंधित तिथियों से लागू अनुबंधित दर पर की जायगी, के साथ नीचे तालिका में वर्णित है।

5		3	. 3		33	
क्रम	ऋण	ऋण का	ऋणधारकों तथा		धारा 13 (2)	सम्पत्ति का पता
सं.	खाता सं.	प्रकार	सह-ऋणधारकों	(2) सूचना	सूचना के अनुसार	
			का नाम	तिथि	बकाया राशि	
1.	26691900	गृह ऋण	1. अय्यूब खान	26.07.2021	1253111.86	प्लॉट नं. 13, ख. नं. 94-105, जो ग्राम मुंगस्का, अलवर, जिल
	एवं		2. मुबिन खान			अलवर-301001, राजस्थान में स्थित है, माप 227.20 वर्ग यार्ड्
	26691801		3. हंसा सुल्तान			का सभी भाग तथा हिस्सा तथा चौहद्दीः पूर्वः प्लॉट नं. 14
						पश्चिमः प्लॉट नं. 12, उत्तरः प्लॉट नं. 9, दक्षिणः 30' चौड़ा रो

एतदुद्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर उसकी संबंधित तिथियों से उस पर अनुबंधित दर पर ब्याज तथ अन्य लागतों, चार्जेज आदि के साथ ऊपर तालिका में दर्शाई गई विवरणों के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तात्कालिक कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड) की बकाया राशि का भुगतान करें जिसमें विफल होने पर अधोहस्ताक्षरी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तात्कालिक कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड ) की बकाया राशि की वसुली के लिये यहां ऊपर वर्णित सम्पत्तियों के विरुद्ध सरफैसी अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्रवाई शुरू करेंगे। पुनः आपको बिक्री/पट्टा अथवा अन्य रूप से उक्त प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को अंतरित करने से उक्त

IDFC FIRST

Bank

तिथि: 06.08.2021 स्थानः अलवर

अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत निषिद्ध किया जाता है। प्राधिकृत अधिकारी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि

( तात्कालिक कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में समामेलित

Indiabulls Housing Finance Limited **Extract of Consolidated Unaudited Financial Results** 

तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड विदित

for the quarter ended June 30, 2021

(₹ in Crores)

		Quarter ended	Year ended	Quarter ended
Sr No.	Particulars	30.06.21 (Unaudited)	31.03.21 (Audited)	30.06.20 (Unaudited)
1.	Total income from operations	2,320.69	9,927.42	2,574.59
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	369.44	1561.66	354.45
3.	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	369.44	1,561.66	354.45
4.	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	281.69	1,201.59	272.84
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	296.66	499.84	168.02
6.	Equity Share Capital	89.09	89.07	83.83
7.	Earnings per Share (EPS) *(EPS for the quarters are not annualised) -Basic (Amount in ₹) -Diluted (Amount in ₹)	6.32 6.31	27.72 27.72	6.51 6.51

# Notes:

 The above results have been reviewed by the Audit Committee on August 05, 2021 and subsequently approved at the meeting of the Board of Directors held on August 05, 2021.

2. The financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standard 34-Interim Financial Reporting, notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015, as amended from time to time, and other accounting principles generally accepted in India and in compliance with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement), 2015.

3. Key Standalone Financial Information:

(₹ in Crores)

	Quarter ended	Year ended	Quarter ended
Particulars	30.06.21 31.03.21 (Unaudited) (Audited)		30.06.20 (Unaudited)
Total Income	2,042.56	8,752.79	2,236.77
Profit before Tax	241.82	1,392.17	222.05
Net Profit after Tax	189.04	1,058.46	166.93

 The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Financial Results filed with the Stock. Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Company's website (http://www.indiabullshomeloans.com) and on the website of BSE (http://www.bseindia.com) and NSE

(http://www.nseindia.com). Figures for the prior year/period have been regrouped and/or reclassified wherever considered

Registered Office: M-62&63, First Floor, Connaught Place, New Delhi -110 001.

(CIN: L65922DL2005PLC136029)

For and on behalf of the Board of Directors Gagan Banga

Place: Mumbai Date : August 05, 2021 Vice-Chairman, Managing Director & CEO

www.readwhere.com

# संबंधी ढांचा: सरकार हितधारकों से चर्चा करने के बाद एनसीईआरटी द्वारा एक नया और व्यापक एनसीएफएसई के तैयार केंद्र सरकार ने गरुवार को किए जाने का राष्ट्रीय शिक्षा नीति

नई दिल्ली, 5 अगस्त।

लिखित जवाब में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनसीएफएसई के लिए एक व्यापक रणनीतिक दस्तावेज तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों. मंत्रालयों. केंद्र सरकार के संबंधित विभागों और

रायपुर,

के नक्सल

प्रभावित

अगस्त (भाषा)।

दंतेवाडा जिले

ने बृहस्पतिवार

में नक्सलियों

को बारूदी

विस्फोट कर

एक निजी

वाहन को

उड़ा दिया।

इस घटना में

एक व्यक्ति

की मृत्यु हो

गई है व 11

अन्य घायल

दंतेवाडा

हो गए।

जिले के

अधीक्षक

अभिषेक

पल्लव ने

बताया कि

जिले के

मालेवाही

अंतर्गत

थाना क्षेत्र के

घोटिया गांव

नक्सलियों ने

बारूदी सुरंग

में विस्फोट

कर बोलेरो

वाहन को

उड़ा दिया।

इस घटना में

धान सिंह की

एक व्यक्ति

मृत्यु हो गई

हैं और 11

हुए हैं।

बताया कि

बृहस्पतिवार

बोलेरो वाहन

को सुबह

में सवार

होकर कुछ

लोग मध्य

प्रदेश के

बालाघाट से

तेलंगाना जा

रहे थे। सुबह

करीब 7.30

घोटिया गांव

पहुंचा, तब

नक्सलियों ने

बारूदी सुरंग

में विस्फोट

घटना में

वाहन को

नुकसान

12 लोग

घायल हो

गए।

पहुंचा और

कर दिया। इस

बजे वाहन

के पास

अन्य घायल

पल्लव ने

के करीब

पुलिस

सूरंग में

छत्तीसगढ

अन्य विशेषज्ञ निकायों सहित सभी बारूदी सुरंग में विस्फोट कर वाहन को उड़ाया

जिसमें अन्य विषयों के अलावे 30.6.2021 को समाप्त तिमाही के

तिथि: 5.8.2021 स्थानः गुरुग्राम

पंजीकृत कार्यालय: 18/32, पूर्वी पटेल नगर, दुरभाष: 011-43206650 | फैक्स: 011-25713631

एतद्दवारा सूचना दी जाती है कि सेबी (सूचीकरण अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक शनिवार, 14 अगस्त, 2021, को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में 18/32, पूर्वी पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 में, आयोजित की जाएगी जिसमे अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित व्यवसायों

क. 30 जून , 2021 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणाम (स्टैंडअलोन और समेकित) पर विचार करने, इनसाइडर टेडिंग की रोकथाम के लिए कंपनी की आचार संहिता के संदर्भ में, ट्रेडिंग विंडो को बंद

प्रस्तुत किया जा चूका है। उक्त नोटिस कंपनी की वेबसाइट

दिनांक: 05 अगस्त , 2021

Email; csfruitionventure@gmail.com

For and on behalf of the Board Fruition Venture Limited

(Sanhit Jain) Date: 05.08.2021 DIN: 05338933

manner as prescribed and provided under the law. For and on behalf of Eppeltone Engineers Private Limited

Atul Mishra Notice To: Atul Mishra S/o VIJAY Mishra R/o Village Phoolsunga, P.O. Rohit Chowdhary Director Transit Camp, Rudrapur, Udham Singh Nagar, Uttar Pradesh-263153

whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of ervice, hence this proclamation under 82 of code f criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 08-10-2021 at 10.00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence, for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district\_noti

Place: Mumbai

# दूषित पाण्यामुळे पोटाचे विकार. रुग्णसंख्येत वाढ

पुणे, दि. ५, (प्रतिनिधी): पावसाळ्यात दूषित पाणी किंवा दूषित पाण्यापासून बनवलेल्या अन्नपदार्थाच्या सेवनातून पोटाच्या विकारांचे रुग्ण दिसतात. नुकताच धरण परिसरात झालेल्या प्रचंड पावसामुळे खडकवासला धरणातून पाणी नदीत सोडण्यात आले आहे. त्यानंतर उलट्या, जुलाब आणि पोटाच्या विकारांच्या रुग्णसंख्येत वाढ झाली आहे. त्यामुळे पाणी उकळून पिण्याचे आवाहन डॉक्टरांकडून करण्यात येत आहे. पावसाळ्यात गढूळ पाण्यातील दूषित अंश पोटात गेल्याने उलट्या, जुलाबांचे रुग्ण आढळण्यास सुरुवात होते. मागील काही दिवसांमध्ये शहरालगतच्या धरण परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पाऊस झाला त्यानंतर धरणातील पाणी नदीपात्रात सोडण्यात आले. पिण्याचे पाणी शुद्ध करून पुरवले जात असले, तरी खबरदारीचा उपाय म्हणून काही काळासाठी उकळून थंड के लेले पाणी पिण्याचे आवाहन महापालिके च्या यंत्रणेकडून करण्यात आले आहे. मात्र, त्याचवेळी बाह्यरुग्ण विभागात येणाऱ्या उलट्या, जुलाब अशी लक्षणे असलेल्या रुग्णांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे निरीक्षण डॉक्टरांकडून नोंदवण्यात येत आहे.

# रोज वाचा दै. 'मुंबई लक्षदीप'

### झेनिथ स्टील पाईप्स ॲण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

(पूर्वीची झेनिथ बिर्ला (इंडिया) लिमिटेड) सीआयएन:एल२९२२०एमएच१९६०पीएलसी०११७७३ नोंदणीकृत कार्यालय: ५वा मजला, इंडस्ट्री हाऊस, १५९, चर्चगेट रेक्लेमेशन, मुंबई–४०००२०. **दूरध्वनी:**०२२–६६६१६८४००, **फॅक्स:**०२२–२२०४७८३५ E-mail:zenith@zenithsteelpipes.com, Website:www.zenithsteelpipes.com

सूचना सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन्स २०१५ च्या नियम ४७(१)(अ) नुसार येथे सूचना देण्यात येत आहे की, ३० जून, २०२१ रोजी संपलेल्या तिमाहीकरित कंपनीचे अलेखापरिक्षित वित्तीय निष्कर्ष विचारात घेणे, मान्यता देणे व नोंद पटावर घेणे याकरित दालामल हाऊस, १ला मजला, नरीमन पॉईंट, मुंबई–४०००२१ येथे **शुक्रवार, १३ ऑगस्ट, २०२**९ रोजी **झेनिथ स्टील पाईप्स ॲण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड**च्या संचालक मंडळाची सभा होणार आहे.

सदर सभेचे वरील तपशील कंपनीच्या www.zenithsteelpipes.com वेबसाईटवर व स्टॉक

रक्सचेंजसच्या <u>www.bseindia.com</u> व <u>www.nseindia.com</u> वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. झेनिथ स्टील पाईप्स ॲण्ड इंडस्टीज लिमिटेडकरित

दिनांक: ०५.०८.२०२१ ठिकाण: मुंबई

सही / सुनिल सुल्लेरे कंपनी सचिव

# झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण SRA/CO/OW/2021/29056

-: ऑनलाईन पध्दतीने सदिनका वाटपाची नोटीस :-

परेल लोकसेवा एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या, न.भू.क्र.१२०(पार्ट) व ११ (पार्ट) गांधीनगर, डॉ. ई. मॉसेज रोड, मांजरेकर लेन, वरळी, मुंबई-४०००१८ या भुखंडावरील पुनर्वसन योजनेतील झोपडीधारकांना कळविण्यात येते प्राधिकरण परिपत्रक क्र. १६२ दि. २३/१०/२०१५ अंशत: बदल आदेश . दिनांक ३०/०६/२०२० नुसार संस्थेतील एकूण ६७ पात्र झोपडीधारकांना पुनर्वसन इमारतमधील निवासी सदनिकांचे सोडत पध्दतीने वाटप करण्यासाठी मा. सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई शहर, झोपुप्रा मंबई यांचे दि. ०५/०८/२०२१ रोजी माझी प्राधिकत अधिकारी म्हणन नियक्ती केलेली आहे. त्यानसा निवासी झोपडीधारकांची यादी पुनर्वसन योजनेच्या भखंडावर नोटीशीसोबत प्रसिध्द करण्यात येत आहे वाटप यादीमधील झोपडीधारकांच्या याबाबत सूचना व हरकती असल्यास त्यांनी दि. १०/०८/२०२१ पर्यंत प्राधिकरणाच्या खालील नमुद ईमेल (<u>sravcmumbai@gmail.com</u>) आयडीवर सादर कराव्यात. ईमेल आयडीवर प्राप्त झालेल्या सुचना व हरकती विचारात घेऊन कायम केलेली एकूण ६७ पात्र झोपडीधारकांसाठी त्रपतिका वाटप सोडतीचा कार्यक्रम **दि. १३/०८/२०२१ रोजी ठीक, दुपारी १२.३० वाजता** प्राधिकरणाच्य कार्यालयात ऑनलाईन पध्दतीने झूम ॲप <u>(Zoom App)</u> वर आयोजित केलेली आहे. प्रसिद्ध केलेल्या यादीनसार पनर्वसन योजनेतील पात्र झोपडीधारकांना अम ॲप <u>(Zoom App)</u> वर सोडतीद्वारे निवासी सदिनकांचे वाटप करण्यात येणार आहे. त्यानसार सोडतीच्या दहा मिनिट अगोदरखाली दिलेल्या लिंकव विहीत तारखेस व वेळेस लॉटरी प्रक्रियेत सहभाग घेण्यात यावा.

विषय :- झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे परिपत्रक क्र. १६२ दि. २३.१०.२०१५ व ऑनलाईन पध्दतीने लॉटरी घेणेकामी अंश:बदल आदेश दि.३०.०६.२०२० नुसार ऑनलाईन झुम ॲप (Zoom App) वर सोडत पध्दतीने पुनर्वसन योजनेतील एकूण ६७ निवासी सदनिकांचे वाटप करणे. (उदव डी. पिंगळे)

प्राधिकृत अधिकारी तथा सहकारी अधिकारी श्रेणी-१, झो.पु.प्रा. मुंबई

१) सोडतीसाठी पात्र (पती/पत्नी) झोपडीधारकांनीच ऑनलाईलन लॉटरीमध्ये विहित वेळेत व तारखेस सहभागी व्हावे.

सोडतीच्या वेळी ज्या झोपडीधारकांचे नांव परिशिष्ट-२ मध्ये पात्र आहेत अशा व्यक्ती अंघ, अपंग विधवा महिला कुटुंब प्रमुख यांनी पुनर्वसन इमारतीमधील खालच्या मजल्यावरील सदनिकांर्च प्राधिकरणाच्या sravcmumbai@gmail.com या ईमेल आयडीवर दि.१०/०८/२०२१ पर्यंत लेखी पत्राने मागणीकेल्यास परिपत्रकातील तरतुदीनुसार सदनिका वाटप करण्यात येईल. सदर गटातील व्यक्तीन ईमेल आयडीवर शासनमान्य अंध-अपंग, याबाबतचा पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच विधव

झोपडीधारकांनी पतीचा मृत्यु दाखला सदर अर्जासोबत सादर करणे आवश्यक आहे.

 ज्या झोपडीधारकांना परिशिष्ट २ मध्ये झोपड़ी ओळखपत्र शुल्क, नुकसान भरपाई व हस्तांतरण शुल्क भरणा करणेबाबत नमुद केलेले आहे, अशा झोपडीधारकांना सदर वाटपावेळी सदनिका वाटप करण्यात येईल. परंतु त्यांनी परिशिष्ट२ मधील नमूद शुल्क भरणा केले नंतर सदनिका वाटपपत्र देण्यात येईल.

POST OFFER ADVERTISEMENT UNDER REGULATION 18(12) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED WITH RESPECT TO THE OPEN OFFER TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

### WHITE ORGANIC RETAIL LIMITED

Registered Office: 312A, Kailas Plaza Vallabh Baug Lane, Ghatkopar (East), Mumbai 400077, Maharashtra, India. Tel: +91-22-25011983; Telefax: +91-22-25011984; **Email:** info@whiteorganics.co.in; **Website:** www.whiteorganics.co.in

Open offer for acquisition of up to 28,36,080 (Twenty-Eight Lakhs Thirty-Six Thousand and Eighty) fully paid-up equity shares of face value of Rs. 10 /- (Rupees Ten Only) each ("Equity Shares") representing 26.00% (Twenty-Six percent) of the Expanded Voting Share Capital at a price of Rs 37.45/- (Rupees Thirty Seven and Forty-Five Paise Only) per Equity Share payable in cash of White Organic Retail Limitec "WORL" or "the Target Company" or "TC"), from the Shareholders of the Target Company by Suumaya Retail Limited (hereinafter referred to as "Acquirer") along with Suumaya Industries Limited (formerly known as Suumaya Lifestyle Limited) (hereinafter referred to as "PAC") ("Offer" or "Open Offer" pursuant to and in accordance with Regulation 3(1) and 4 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendmen

thereto ("SEBI (SAST) Regulations"). This Post Offer Advertisement ("Post-Offer Advertisement") is being issued by Fedex Securities Private Limited (formerly Known as Fedex Securities Limited), the Manager to the Offer ("Manager to the offer"), or behalf of Acquirer and PAC, in connection with the Offer made by the Acquirer along with PAC, in compliance witl

Regulation 18(12) of the SEBI (SAST) Regulations. This Post Offer Advertisement is to be read in continuation of and in conjunction with: (a) the Public Announcement (the "PA") dated May 21, 2021; (b) the Detailed Public Statement (the "DPS") which was published on May 28, 2021 in Financial Express (English, all editions), Jansatta (Hindi, all editions), and Mumba Lakshadeep (Marathi, regional edition); (c) the Letter of Offer (the "LoF") along with Form of Acceptance-cum Public Statement published on July 19, 2021 in the same newspapers where DPS was published (the "**Offe**r

Opening Public Announcement and Corrigendum"). Capitalised terms used but not defined in this Post Offer Advertisement shall have same meaning assigned to

such terms in the LOF.				
The Shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following information relating to the Offer:				
1.	Name of the Target Company	White Organic Retail Limited		
2.	Name of the Acquirer and PAC	Acquirer: Suumaya Retail Limited		
		PAC: Suumaya Industries Limited (formerly known as Suumaya Lifestyle		
		Limited)		
3.	Name of Manager to the Offer	Fedex Securities Private Limited		
4.	Name of the Registrar to the Offer	Link Intime India Private Limited		
5.	Offer Details			
	(a) Date of Opening of the offer	Tuesday, July 20, 2021		
1	(h) Date of Closure of the offer	Tuesday August 03 2021		

# Date of payment of consideration Not Applicable, since no Equity Shares were tendered in the Open Offer. (a

1. U	etalis of Acquisitions				
Sr. No.	Particulars	Propose Offer Do		Act	uals
7.1.	Offer Price	Rs. 37.45 per	Equity Share	Rs. 37.45 Pe	r Equity Share
7.2.	Aggregate number of Equity Shares tendered	up to 28,	36,080 <sup>(b)</sup>	N	L <sup>(a)</sup>
7.3.	Aggregate number of Equity Shares accepted	up to 28,	36,080 <sup>(b)</sup>	N	L <sup>(a)</sup>
7.4.	Size of the Offer (Number of Equity Shares multiplied by offer price per Equity Share)	Rs. 10,62	,11,196 <sup>(b)</sup>	NIL <sup>(a)</sup>	
7.5.	Shareholding of Acquirer before Share Purchase Agreement ("SPA") and Public Announcement (No. & %)	NI	L	NIL	
7.6.	Equity Shares Acquired by way of Share Purchased Agreement ("SPA")  Number  More Fully Diluted Equity Share Capital	60,00, 55.0			),000 <sup>(c)</sup> 01 %
7.7.	Equity Shares Acquired by way of Open Offer Number Mof Fully Diluted Equity Share Capital	up to 28,36,080 <sup>(b)</sup> 26.00 %		NIL <sup>(a)</sup>	
7.8.	Equity Shares Acquired after Detailed Public Statement  Number of Shares Acquired  Price of the Shares Acquired  of the Shares Acquired	NIL NIL		IIL	
7.9.	Post Offer shareholding of Acquirer  Number  % of Fully Diluted Equity Share Capital	88,36,080 <sup>(d)</sup> 60,00,000 <sup>(l)</sup> 81.01% 55.01%			
7.10.	Pre and Post Offer shareholding of Public Shareholders	Pre – Offer	Post – Offer	Pre – Offer	Post – Offe
	Number     Of Fully Diluted Equity Share Conite	49,08,000	20,71,920	49,08,000	49,08,000

• % of Fully Diluted Equity Share Capital 44.99 % 18.99% 44.99 % 44.99 % (a) No Equity Shares have been tendered in this Open Offer. The same has been certified by the Registrar to the Open Offer vide its certificate dated August 04, 2021.

(b) Assuming full acceptance of the Offer

c) The Acquirer has entered into the SPA with the Seller, pursuant to which the Acquirer has agreed to acquir 60,00,000 (Sixty Lakhs) Equity Shares and as on the date of this Post Offer Advertisement, the same is in the

d) Assuming full acceptance of offer of 28,36,080 (Twenty-Eight Lakhs Thirty-Six Thousand and Eighty) Equity Shares and acquisition through SPA of 60,00,000 (Sixty Lakhs) Equity shares aggregating upto 55.01% of the Expanded Voting Share Capital of the Target Company. The Acquirer along with its Directors and PAC severally and jointly accept full responsibility for the information

contained in this Post Offer Advertisement and also for the obligations under SEBI (SAST) Regulations. Acopy of this Post Offer Advertisement will be available on the website of SEBI (www.sebi.gov.in), BSE Limited www.bseindia.com), the Target Company (www.whiteorganics.co.in), Manager to Offer (www.fedsec.in) 8 Registrar to Offer (www.linkintime.co.in).

ISSUED BY THE MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRER FEDEX SECURITIES PRIVATE LIMITED

B 7, 3rd Floor, Jay Chambers, Dayaldas Road, Vile Parle (East)

Mumbai-400057, Maharashtra, India. | Tel No.: +91 81049 85249 | Fax No.: 022 2618 696 E-mail: mb@fedsec.in | Website: www.fedsec.in | Contact Person: Yash Kadakia SEBI Registration Number: INM000010163 | Investor Grievance E-Mail: mb@fedsec.in

Date : August 05, 2021 Place : Mumbai

जाहिर सुचना मी श्रीमती रेखा मनसखलाल राजपत राहणार २११, ओम साई राक्ति को.ओ.हौसिंग सोसायटी, वृंदावन मार्ग, ओवरीपाडा, दहिसर (इस्ट), मुंबई- ४०००६८. जाहीर करते क माझा मुलगा **नैनेश मनसुखलाल राजपूत** यांच मृत्यु दि. १३/०४/२०१९ रोजी झाला. त्यांचे

BAJAJ PULSAR 220 DTSI F (MH47F8541 Chassis No. MD2A13EZ3FCG15483 बाईक रजीस्टर्ड आहेत. ज्याचे कानुनन वारिस म **रेखा मनसुख राजपूत** आहे आणि माझे नावाव ट्रान्सफर करण्यासाठौ R.T.O. BORIVALI) येथे अर्ज केला आहे. जर कोणाला काही हरकत असल्यास त्यांनी **१५ दिवसांचे** आत **R.T.O**. BORIVALI येथे संपर्क करावा

# जाहीर नोटीस

आम जनतेला माहीतीकरीता कळविण्यात येते की आमचे अशिल श्री •िमलिंद श्रीराम मयेकर हे रिवेरा को . ऑप . ही . सो . लि . (Registration No. TNA) DOM/ HSG/(TC) / २८१७२/२०१५) हया संस्थेचे सभासद असून सदनिका नं बी १४०१ क्षेत्रफळ ६६८ चौ . फूट कारपेट हु एक ओपन कार पार्की ग् चौदावा मजला ह्यरीवेरा बीह रिवेरा को . ऑप हो .सो .िल कासा वेल्ला निळजे डोंविवली पर्व ४२१२**०**४ या सदनिकेबाबत संस्थेचे पत्येकी ५० रूपये किंमतीचे अनुकंमांक ८८१ ते ८९०) हे १० भाग असलेले सोसायटी शेअर्स सर्टिफीकेट नं 10८७ आमचे अशिलाने धारण केलेले आहे .

सदर सदनिका आमचे अशिलाने त्यांची आई श्रीमती - माधवी श्रीराम मयेकर यांच्यासह संयक्त रीत्या दिनांक १९.०४.२०१० रोजीच्या आणि सह दय्यम निवंधक कार्यालय कल्याण ३ यांचे कार्या लयात दिनांक २३.०४.२०१० रोजी नोंदणीकृत दस्त कं .२८६० / २०१० अन्वये नोंदणीक केलेल्या करारनामा या दस्ताद्वारे मेसर्स लोढा ड्वेलर्स पा . लि . यांच्याकड्न कायमस्वरूपी विकत घेतली . आमच्या अशिलांची आई श्रीमती . माधवी श्रीराम मयेकर हिचे दिनांक ०४ .०२ .२०१८ रोजी निधन झाले असून त्यांच्या मृत्यूपश्चात त्यांना पती श्री . श्रीराम खेळाजी मयेकर व दोन मुले अनुकंमांक श्री . मिलिंद श्रीराम मयेकर व श्री . अभय श्रीराम मयेकर हे कै . श्रीमती . माधवी श्रीराम मयेकर यांच्या हिस्स्यास त्यांचे कायेदेशिर वारस असन या व्यतिरीक्त अन्य कोणीही कायदेशिर वारस नाहीत है आमचे अशिल याद्वारे नमुद करत आहेत श्रीमती . माधवी श्रीराम मयेकर यांच्या मृत्यूपश्चात आमचे अशिल व त्यांच्या संयक्त नावे असलेले सोसायटी शेअर्स सर्टिफीकेट सोसायटी पदाधिका यांनी दिनांक १२ . ०३ . २०२१ रोजी अन्य वारसांच्या संमती द्वारे आमचे अशिलाच्या एकट्याच्या नावे हस्तांतरीत केले आहे .

तरी सदर सदनिका आमचे अशिलाने त्याम्च्य वडिलांच्या व लहान भावाच्या संमतीने विकायची ठरवलेली असून या मिळकतीच्या संदर्भामध्ये कोणीही व्यक्ती वा संस्था यांचे हक्क अधिकार गहाणुदान बोजा तारण बक्षिसपञ् भाडेपइटटा खरेदीखत साठेखत कलमखत्यारपञ अगर इतः स्वरूपात हक्क वा अधिकार असतील तर त्या व्यक्तीने संस्थेने आपल्या हरकती लेखी स्वरूपात खालिल नमद केलेल्या पत्त्यावर योग्य त्या कागदपञांसह व पुराव्यासह सदरची नोटीस प्रसिध्द झाल्याच्या तारखेपासून १५ दिवसाच्या आत नोंदवाव्यात . मुदतबाह्य हरकती आल्यास त्या आमचे अशिलांवर बंधनकारक राहणार नाहीत यांची संबधितांनी नोंद घ्यावी

सही / ॲड . आर . आर . प्रधान सी -71. कस्तरी प्लाझा मानपाडा रोड़ डोंबिवली पुर्व संपर्क कं . 9870704981 Dt: 06.08.2021

#### जाहीर नोटीस

सदर जाहीर नोटीसीद्रारे तमाम जनतेस कळविण्य येते की, शफिक अहमद लियाकत हुसेन भाटी व अंजुम आरा शफिक अहमद भाटी हे सोपारा गुलमोह को ऑ हौ सो लि चे सभासद तसेच त्यातील सदनिक क २०४ दसरा मजला सोपारा गलमोहर को ऑ है सो.लि., गांव मौजे सोपारा, नालासोपारा (पश्चिम), ता. वसई, जि. पालघर हया सदनिकेचे संयुक्त मालक होते तरी त्यापैकी अंजुम आरा शफिक अहमद भाटी यांचे दिनांक ०९/११/२०२० रोजी निधन झाले आहे. तरी त्यांच्य मृत्युपश्चात माझे अशिल व अंजुम आरा शफिक अहमव भारी यांचे पती शफिक अहमद लियाकत हसेन भारी यांनी ते अंजम आरा शफिक अहमद भाटी यांचे एकमेव वारस असल्याकारणे सदर मयत सभासदाचे भाग व हेतसंबंध हस्तांतरीत करण्यासंबंधी सोपारा गलमोहर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादीत संस्थेकडे अर्ज केल

तरी या नोटीशीव्दारे संस्थेच्या भांडवलात मालम असलेले मयत सभासदाचे भाग व हितसंबंध हस्तांतरीत करण्यासंबंधी मयत सभासदाचे वारसदार किंवा अन्य गागणीदार हरकतदार यांच्याकडन हक्क. मागण्या हरकती मागवण्यात येत आहेत. तरी सदर सदनिकेवर कोणाचा कोणत्याही प्रकारचा हक्क हिस्सा हितसंबंध गसल्यास ही नोटीस प्रसिद्ध झाल्यापासून ७ दिवसांच आत मला खालील पत्यावर लेखी पुराव्यासह कळवावे अन्यथा तसा कोणचाही कोणत्याही प्रकारच हक्क हितसंबध हिस्सा अधिकार नाही व असल्यार तो सोडन दिला आहे असे समजण्यात येईल आणि मयत प्रभासदांचे संस्थेच्या भांडवलातील मालमत्तेतील भार त्र हितसंबंध यांच्या हस्तांतरणाबाबत पुढील कार्यवार्ह एयात येईल याची नोंद घ्यावी

ॲड. निशिगंधा जयंत परब पत्ता : ए/१०१, काशी कपा को,ऑ,हौ,सो,लि., दिपव मेडीकल जवळ, एस. टी. डेपो रोड, नालासोपारा (प् ४०१ २०३

#### **PUBLIC NOTICE**

Shri Omprakash B. Lahoti, the bonafide member of Madhuban Premises Cooperative Housing Society Ltd., situated at S.V. Road, Goregaon (West), Mumbai-400104 and holding Flat No. 301 on Third Floor of the building of the Society has reported to the Society that the Original Share Certificate has been lost/misplaced and application has been made for duplicate Share Certificate. The Original Registered Sale Agreement dated 20th December, 1965 has also been misplaced/lost or stolen. The Society hereby invites claims and objections from claimants/objector or objectors for issuance of duplicate Share Certificate within the period of 14 (fourteen) days from the publication of this notice, with copies of such documents and other proofs in support of his/her/their claims/objections for issuance of duplicate Share Certificate to the Secretary of Madhuban remises Co-operative Housing Society Limited, at S.V. Road, Goregaon (West), Mumbai-400104 if no claims/objections are received within the period prescribed above, the Society shall be free to issue duplicate Share Certificate in such manner as is provided under the ye-laws of the Society. The claims/objections, if any, received by the Society shall be dealt with in the manner provided under the bye-laws of the Society. A copy of the registered bye-laws of the Society is available for inspection by the claimants/objectors, with the Secretary of the Society between 10.00 AM to 4.00 PM on working days from the date of the publication of the notice till the date of expiry of its period.

For and on behalf of Madhuban Premises Co-op Housing Society Ltd. Sd/ -(Hon. Secretary) Place: Mumbai Date: 06.08.2021

CIN:L21000MH1983PLC029128

Parle Industries Limited

(Formerly known as Parle Software Limited)

### **PUBLIC NOTICE**

GOLDEN NEST-\*, SONAM ASHISH CHL LTD., having address at, Phase-VIII, New Golden Nest, Mira Bhayander Road Bhayander (E)., Dist. Thane - 401 105., an holding Flat No. 201, Wing-G, in the building of the Society, died on 14/04/2021 & 13/12/201 respectively without making any nomination SMT. PUSHPA VINAYAK SONAWANE applied for seld membership of the society. The society of the soci r sole membership of the society The socie reby invites claims or objection from the he r object to the transfer of the said shares erest of the deceased member in the capi property of the Society within a period of 15 ys from the publication of this notice, wi pies of such documents and other proofs in pport of his / her / their claims / objections for sfer of shares and interest of the deceas nember in the capital / property of the Society, in o claims / objections are received within the reriod prescribed above, the Society shall be ree to deal with the shares and interest of the teceased member in the capital / property of re Society in such manner as is provided inder the bye-law of the Society. The claims / bjections, if any, received by the Society, ransfer of shares and interest of the deceased ember in the capital / property of the Society hall be dealt within the manner provided inder the bye-laws of the Society, a valiable prinspection by the claimants / objectors, in en office of the Society with the secretary of me office of the Society with the secretary of me office of the Society with the secretary of mber in the capital / property of the Societ e office of the Society / with the secretary of e Society between 10.00 A.M to 6.00 P.M m the date of publication of the notice till the te of expiry of its period. Date: 06/08/2021 GOLDEN NEST-8, SONAM ASHISH LTD. CRETARY / CHAIRMAN Place: Bhayander (E)

#### जाहीर सूचना

सर्वसामान्य जनतेस येथे सूचने देण्यात येत आहे की, शेठ वह्नभदास मेघजी चॅरीटी ट्रस्ट यांना श्रीमती नर्मदा रतनशी कोठारी यांच्याकडुन खोली क्र.३१, इमारत क्र.१ली, ७८ गोविंदजी केणी रोड, परळ भोईवाडा, मुंबई-४०००१२ यांचे १५ जून, २०२० रोजी निधन झाले. यांची खोली क्र.३१ चे हस्तांतरणासाठी स्वर्गीय श्रीमती नर्मदा रतनशी कोठारी यांचे कायदेशीः वारसदारांच्या ताब्यात असलेल्या खोलीचे हस्तांतरणासाठी अर्ज प्राप्त

झाला आहे. जर कोणा व्यक्तीस सदर खोली क्र.३१ बाबत विक्री, अदलाबदल, भाडेपट्टा परवाना, न्यास, मालकी हक्क कायदेशीर हक्क, ताबा, जप्ती, लिस पेन्डन्स, तारण, अधिभार, बक्षीस, बँक/वित्तीय संस्थेकडील कर्ज किंव अन्य इतर प्रकारे कोणताही दावा असल्यास त्यांनी सर्व आवश्यक दस्तावेजांसह सेठ वल्लभदास मेघजी चॅरीटी ट्रस्ट यांचे कार्यालयात सदर सूचना प्रकाशन तारखेपासून १५ (पंधरा) दिवसांच्या आत सादर करावेत. अन्यथा विश्वस्तांकडून श्रीमती नर्मदा रतनशी कोठारी यांचे कायदेशीर वारसदारांच्या संयुक्त नावे सदर खोली क्र.३१ बाबत वहिवाट अधिकार व भाडे देयक हस्तांतर केले जातील

आज दिनांकीत ०६ ऑगस्ट, २०२१ सही/-विश्वस्त सेठ वल्लभदास मेघजी चॅरीटी ट्रस्ट

#### PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that Mr. Aievkumar Sadanand Jadhay, occupant of Tanement No. 6254 in Bldg. No. 241, Devgiri Kutir Co-operative Housing Soc. Ltd., Pantnagar Ghatkopar (East), Mumbai-400 075.

Late Sadanand Mohan Jadhav was the original allotee of tenement, Share certificate No. 31 to 35 was issued in the name of Late Sadanand Mohan Jadhav on the formation of Society which was now misplaced. Late Sadanand Mohan Jadhav had made a will and adoption deed in favour of Mr. Ajeykumer Sadanand Jadhav nephew. Late Sadanand Mohan Jadhay expired on 26/07/1983 and his wife Late Vishakha Sadanand Jadhav expired on 11/03/2008. MHADA has issued NOC for transferring the tenement in the name of my client Mr. Ajeykumar Sadanand Jadhav.

On behalf of my client Mr. Ajeykumar Sadanand Jadhav, the undersigned advocate hereby invites claims of objections from other heir/s or claimant/s or objector/s for the transfer of the said shares and interest of the deceased member in the property of the society in favour of the client within a period of 30 days from the publication of this notice, with copies of proofs to support the claim/objection at below mentioned address. If no claims/objections are received within the period prescribed above, the society shall be at the liberty to transfer the share of the deceased in the manner provided under the laws

> RAJESH C. KARAMKAR Advocate High Court

> > Date: 06.08.2021

Office Add.: Near Ramai 14/23 Resi.: 48/443, Ramabai Ambedkar Nagar, Ghatkopar (East), Mumbai - 400 075. Mob.: 9892635910

CORNUCOPIA CONSUMER VENTURE ADVISORY LLP

# 601, 6TH Floor, Fortune Heights, 29th Road, Bandra West, Mumbai LLPIN: AAN-8919

Place: Mumba

Date: 06/08/2021

Email id: manu@sauce.vo In the matter of sub-section (3) of Section 13 of Limited Liability Partnership Act. 2008 and rule 17 of the Limited Liability Partnership Rules, 2009 In the matter of the Limited Liability Partnership Act, 2008, Section 13 (3) AND In matter of CORNUCOPIA CONSUMER VENTURE ADVISORY LLP having its registered office at Maharashtra-400050

#### CORNUCOPIA CONSUMER VENTURE ADVISORY LLP being the Applicant

#### PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the General Public that the LLP proposes to make an application to Registrar of Companies under Section 13 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 read with Rule 17 of LLP Rules, 2009 for change in address of Registered Office of the LLP from 601, 6th Floor, Fortune Heights, 29th Road, Bandra West, Mumbai-400050 to M-11 Tara Apartment Kalkaii, Near New Green Field School, New Delhi-110019 Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of registered office of the LLP may within 21 days from the date of publication of notice, deliver or cause to be delivered or send by registered post his / her objections supported by an affidavit in original, stating therein nature of interest and grounds of opposition to the Registrar of Companies, Mumbai with a copy to the applicant at the address mentioned below: 601, 6th Floor, Fortune Heights, 29th Road, Bandra West, Mumbai- 400050.

For and on behalf of Cornucopia Consumer Venture Advisory LLP Sd/Mr. Manu Chandra, Designated Partner

DPIN: 05327368

### एरिस इंटरनॅशनल लिमिटेड

सीआयएन: एल२९१३०एमएच१९९५पीएलसी२४९६६७ नोंद.कार्या.:१२९, बी अन्सा इंडस्ट्रीयल इस्टेट, साकीविहार रोड, साकीनाका, अंधेरी (पू.), मुंबई-४०००७२. **२० जून, २०२१ रोजी संपलेल्या तिमाहीकरिता अलेखापरिक्षित वित्तीय निष्कर्षांचा अहवाल** 

	एकमव	
तपशील	संपलेली तिमाही ३०.०६.२०२१	संपलेली तिमाही ३०.०६.२०२०
कार्यचलनातून एकूण उत्पन्न (निव्वळ)	2.00	3.40
करपूर्व साधारण प्रक्रियेतून निव्वळ नफा/(तोटा)(कर, विशेष साधारण बाबपूर्व)	(8.८८)	(२.३०)
करानेतर साधारण प्रक्रियेतून निव्वळ नफा/(तोटा)(विशेष साधारण बाबनंतर)	(8.८८)	(२.३०)
करपुर्व कालावधीकरिता निव्वळ नफा/(तोटा)(विशेष साधारण बाबनंतर)	(8.८८)	(२.३०)
करानंतर कालावधीकरिता निव्वळ नफा/(तोटा)(विशेष साधारण बाबनंतर)	(8.66)	(२.३०)
भरणा केलेले समभाग भांडवल (दर्शनी मूल्य रु.१०/- प्रतीभाग)	8६.२०	४६.२०
राखीव (मागील वर्षांच्या लेखापरिक्षित ताळेबंद पत्रकात दिल्याप्रमाणे		
पुनर्मुल्यांकित राखीव वगळून)	(६४.७६)	(६५.७९)
उत्पन्न प्रतिभाग (विशेष साधारण बाबपुर्व) (रू.१०/- प्रत्येकी)		
अ. मूळ ब. सौमिकृत	-	-
	-	-
उत्पन्न प्रतिभाग (विशेष साधारण बाबनंतर) (रू.१०/– प्रत्येकी)		
अ. मूळ ब. सौमिकृत	-	-
ब. सौमिकृत	-	-

मागील वर्ष/कालावधीचे आकडे जेथे आवश्यक आहे तेथे पुनर्गठित/पुनर्गमूद केले आहेत. वरील वित्तीय निष्कर्षाचे लेखासमितीद्वारे पुनर्चिलोकन करण्यात आले आणि ५ ऑगस्ट, २०२१ रोजी झालेल्य संचालक मंडकच्या सपेत मान्य करण्यात आले. ३० जुन, २०२१ रोजी संपलेल्या तिमाहीचे निष्कर्ष वैधानिव लेखापरिक्षकाद्वारे मर्यादित पुनर्विलोकन करण्यात आले.

कंपनी फक्त एकमेव विभागात कार्यरत आहे आणि म्हणून एएस-१७ विभागीय निष्कर्ष कंपनीला आवश्यक नाही एरिस इंटरनॅशनल लिमिटेडकरित

सही/- जयंती प्रधा व्यवस्थापकीय संचालव

(डीआयएन:०८५२९०३९)

# जाहीर सूचना

सर्वसामान्य जनतेस येथे सुचित करण्यात येत आहे की, माझे अशील श्री. दिपक बाबुराव खंडागळे यांनी येथे घोषित केले आहे की, ते तळ + पहिला मजला असलेली निवार्स जागा खोली क्र.एफ-१२/ए प्रत्येकी मजल्यावर क्षेत्रफळ सुमारे १० फुट बाय १८ फुट चौ.फ.. द्वारकाबाई बने चाळ, माने कंपाऊंड, काजुपाडा, बोरिवली (पूर्व), मुंबई-४०००६६ आणि गांव दहिसर, तालुका बोरिवली आणि मुंबई शहर व मुंबई उपनगर, नोंदणी जिल्हा व उपजिल्हा येथे असलेल्या जागेचे मालक आहेत आणि त्यांच्याकडे संपूर्ण ताबा आहे (सदर खोली जागा).

माझे अशिलांनी येथे नमुद केले आहे की, श्री. द्वारकाबाई बने यांच्याकडे मुळ मालकी हक आहे त्यांनी दिनांक १६ में, २००० रोजीचे विक्री करारनामा अंतर्गत सदर खोली जागा श्री स्वप्नेश कृष्णा सकपाळ यांच्याकडे विक्री व हस्तांतर केले आणि सदर श्री. स्वप्नेश कृष्ण सकपाळ यांनी दिनांक १३ ऑक्टोबर, २०११ रोजीचे विक्री करारनामा अंतर्गत माझे अशिलाकडे सदर खोली विक्री व हस्तांतर केली आणि माझे अशील सदर खोली जागेचे

माझ्या अशिलांनी नमुद केले आहे की, माझ्या अशिलास सदर खोली जागा विक्री करारनामा निष्पादन करून योग्य रकमेकरिता इच्छुक खरेदीदारास विक्री व हस्तांतर करण्याची इच्छा

सर्वसामान्य जनतेस येथे कळविण्यात येत आहे की, जर कोणा व्यक्तीस सदर खोलीबाबत वारसाहक, परिरक्षा, मृत्युपत्र, बक्षीस, विक्री, तारण, अधिभार, न्यास, भाडेपद्रा. मालकी हक आणि/किंवा ताबा, अधिभार, परवाना, लिस पेन्डन्स, कायदेशीर हक किंवा अन्य इतर प्रकारे कोणताही दावा किंवा अधिकार असल्यास त्यांनी सदर सचना प्रकाशन तारखेपासन **१४ (चौदा)** दिवसांत खालील स्वाक्षरीकर्तांना त्यांच्या कार्यालयात त्यांचे दावा सर्व आवश्यक दस्तावेजांसह सादर करावेत. अन्यथा अशा व्यक्तींचे दावा त्याग केले आहेत असे समजले जाईल आणि माझ्या अशिलांवर बंधनकारक असणार नाही.

**ठिकाण:** मुंबई

दिनांक: ०६.०८.२०२१

प्रत्येक वर्गाकरिता तीन नावे)

तपशिल उपलब्ध असल्याचे पत्ता

अमोल आरोते (वकील उच्च न्यायालय) २. रानडे अपार्टमेंट. सावरपाडा कॉर्नर, काजपाडा बोरिवली (पुर्व), मुंबई-४०००६६

जाहिर अधिसूचना ॲण्ड बॅंकरप्टसी बोर्ड ऑफ इंडिया

	(इनसॉल्व्हेन्सी रिझोल्युशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट	पर्सन्स) रेग्युलेशन्स, २०१६ चे नियम ६ अन्वये)			
अपो	लो <b>सोयुझ इलेक्ट्रीकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड</b> , सीआयएन-युः	३११००एमएच१९९७पीटीसी१०६४५६ च्या धनकोंचे लक्षा वेधण्याकरिता			
	आवश्यक तपशिल				
१	कॉर्पोरेट ऋणकोचे नाव	अपोलो सोयुझ इलेक्ट्रीकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड			
2	कॉर्पोरेट ऋणकोची स्थापना तारीख	१०.०३.१९९७			
æ	ज्या प्राधिकरणाअंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणको स्थापना/नोंदणीकरण झाले आहे	कंपनी निबंधक, महाराष्ट्र, मुंबई			
Х	कॉर्पोरेट ऋणकोचे कॉर्पोरेट ओळख क्रमांक /मर्यादित दायित्व ओळख क्रमांक	यु३११००एमएच१९९७पीटीसी१०६४५६			
4	कॉर्पोरेट ऋणकोचे नोंदणीकृत कार्यालय व प्रधान कार्यालयाचे (काही असल्यास) पत्ता	ईएल-७४/७५, इलेक्ट्रॉनिक झोन महापे, नवी मुंबई-४००७०१.			
Ę	कॉर्पोरेट ऋणकोंच्या संदर्भात दिवाळखोरी प्रारंभ तारीख	दिनांक ०४.०८.२०२१ रोजी प्राप्त एनसीएलटी बेबसाईटवर असलेले एनसीएलटी आदेशात १२.०७.२०२१ ही अपतदारी प्रारंभ तारीख आहे. प्रमाणित प्रत अद्यापी प्राप्त करणे शेष आहे. (एनसीएलटी, मुंबई न्यायपीठद्वारे दिनांक १२.०७.२०२१ रोजी पारीत आदेश)			
b	दिवाळखोरी ठराव प्रक्रिया समाप्तीची अंदाजित तारीख	0८.0१.२0२२			
۷	अंतरिम ठराव प्राधिकारी म्हणून कार्यरत अपतदारी अधिकाऱ्याचे नाव व नोंदणी क्रमांक	श्री. संजय कुमार ललित आयबीबीआय नोंदणी क्र. आयबीबीआय/आयपीए-००२ /आयपी-एन००७६०/२०१८-२०१९/१२३७०			
9	नोंदणीकृत पत्ता	२०७, युनायटेड विझनेस पार्क, २रा मजला, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिसच्या मागे, रोड क्र.११, वागळे इस्टेट, ठाणे (पश्चिम), मुंबई-४००६०४. ई-मेल: jupiter.legal@yahoo.in			
१0	अंतरिम ठराव प्राधिकाऱ्याचे पत्रव्यवहाराचा पत्ता	२०७, युनायटेड बिझनेस पार्क, २रा मजला, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिसच्या मागे, रोड क्र.११, वागळे इस्टेट, ठाणे (पश्चिम), मुंबई-४००६०४. ई-मेल: sanjay@jupiterlegal.in			
११	दावा सादर करण्याची अंतिम तारीख	१८.०८.२०२१			
१२	अंतरिम ठराव प्राधिकाऱ्याद्वारे दिलेले कलम २१ चे उपकलम (६ए) चे नियम (बी) अंतर्गत धनकोंचे वर्ग, काही असल्यास	उपलब्ध नाही			
१३	वर्गाप्रमाणे धनकोंचे अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत पतदारी अधिकाऱ्याचे नाव	उपलब्ध नाही			

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, दिनांक १२.०७.२०२१ रोजी सीपी (आयबी) ३४८४/एमबी/सी-२/२०१९ मधील अपोलो सोचुझ इलेक्ट्रीकल्स प्रायवहेट लिमिटेडच्या कॉपीरेट अपतदारी ठराव प्रक्रियेचे प्रारंभ आदेश राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण, मुंबई न्यायपीठाने दिला आहे तो दिनांक ४०.८०.२०२१ रोजी एससीएटती देबास्ट्रीय एनसीएलटी आदेश प्राप्त झाला आहे. प्रमाणित प्रत अद्यापी शेष आहे (दिनांक १२.०७.२०२१ रोजी सापी (आयबी)

वेबलिंकः https://ibbi.gov.in/home/downloads प्राधिकृत अधिकाऱ्याचे तपशीलः लागू नाही.

३४८४/एमबी/सी-२/२०१९ मधील एनसीएलटी, मुंबई न्यायपीठ आदेश). अ**पोलो सोयुझ इलेक्ट्रीकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड**च्या धनकोंना बेथे कळविण्यात येत आहे की, बाब क्र.१० मध्ये नमूर ात्त्यावर अंतरीम ठराव अधिकाऱ्याकडे १८.०८.२०२१ रोजी किंवा त्यापूर्वी त्यांच्या दाव्याचे पूरावे सादर करावे. र्थिक धनकोंनी त्यांचे दाव्याचे पुरावे फक्त विद्युत स्वरूपातच सादर करावेत. कार्यचालक भागधारकांना तसेच कामगा a कर्मचारी यांनी त्यांच्या दाव्याचे पुरावे व्यक्तिश:, टपालाद्वारे किंवा विद्युत स्वरूपात सादर करावेत.

वरील टीप १२ समोर नमुद श्रेणीसंबंधित वित्तीव धनकांनी नमुना सीएमधील श्रेणीचे अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून कार्यरर टीप क्र.१३ समोर नमुद तीन अपतदारी प्राधिकाऱ्यांपैकी एकाकडून अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून निवड दशेवावी. त्याचे चूकीचे किंवा फसवे पुरावे सादर केल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाईल. अंतरीम ठराव प्राधिकाऱ्याचे नाव स्वाक्षरी: संजय कुमार ललित ०५.०८.२०२१, मुंबई

For Parle Industries Limited Rakeshkumar D. Mishra

Regd Office: B/6 Knox Plaza, Ground Floor, Mind Space, Malad West, Mumbai-400064 Tel No.40033979, Email: info@parleindustries.com, Website: www.parleindustries.com STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2021 (Rupees in Lakhs excluding EPS) Quarter Quarter

	PARTICULARS	Ended 30.06.2021	Ended 31.03.2021	Ended 30.06.2020	Ended 31.03.2021
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
I)	Revenue From Operation	-	-	-	1.49
II)	Other Income	87.03	17.85	9.89	64.36
III)	Total Revenue (I+II)	87.03	17.85	9.89	65.85
IV)	Expenses:				
'	a) Cost of material consumed	-	-	-	-
	b) Purchase of stock-in-trade	(78.05)	-	-	-
	c) Changes in inventories of finished goods,	, ,			
	stock in trade and work-in-progress	78.05	-	-	1.49
	d) Employee benefits expenses	1.80	4.82	1.17	8.64
	e) Finance Costs	0.01	(0.02)	0.01	-
	f) Depreciation and amortisation expense	0.06	5.12	5.15	20.51
	g) Other expenses	86.51	91.34	2.79	115.49
	Total Expenses (IV)	88.39	101.26	9.13	146.13
V)	Profit (+) / Loss (-) before Exceptional and Tax (III-IV)	(1.35)	(83.41)	0.76	(80.28)
VÍ)	Exceptional items	` .	· · ·	-	` _
VII)	Profit (+) / Loss (-) before Tax (V-VI)	(1.35)	(83.41)	0.76	(80.28)
VIII)	Tax Expenses	` .	(28.24)	-	(30.85)
'	1) Current Tax	-		-	` -
	2) (Excess) / Short provision for Tax	-	-	-	(2.61)
	3) Deffered Tax	-	(28.24)	-	(28.24)
IX)	Profit (+) / Loss (-) for the period (VII-VIII)	(1.35)	(55.17)	0.76	(49.43)
X)	Other Comprehensive Income (OCI)				
l.	Items that will not be reclassified to Profit and Loss	-	-	-	-
ii.	Income Tax relating to Items that will not be reclassified				
	to Profit or Loss	-	-	-	-
iii.	Items that will be reclassified to Profit or Loss	-	-	-	-
iv.	Income Tax relating to Items that will be reclassified to				
	Profit or Loss	-	-	-	-
	Total Comprehensive Income	-	-	-	-
XI)	Total Comprehensive Income for the period	(1.35)	(55.17)	0.76	(49.43)
XII)	Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs.10/ each)	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
XIII)	Other Equity				
XIV	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (not annualised)				
	(1) Basic (Rs.Per Share)	(0.01)	(0.39)	0.01	(0.35)
1	(2) Diluted (Rs.Per Share)	(0.01)	(0.39)	0.01	(0.35)
1 1	1 The unaudited financial results for the quarter ended 30th June, 2021 have been reviewed by the Audit Committee and approved by				

the Board of Directors at their meeting held on 05th August, 2021. The unaudited Financial Results are prepared in accordance with Companies (Indian Accounting Standard) Rule, 2015 as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013.

The figure for the quarter ended 31st March 2021 are the balancing figures between the audited financial figures in respect of the ful

financial year and unaudited published year to date financial figures upto 31st December 2020.

The Company has a subsidiary named "PSL Recycling Private Limited". We would like to inform that as on 30th June 2021, there have been no transactions with the said subsidiary other than the payment of share capital. Since there have been no transaction

and since the same is not material, the Company has not submitted Consolidated Results for the Quarter ended 30th June 2021.The Company has two reportable segment i.e Infrastructure and Real Estate and Trading. In accordance with Indian Accounting

Standards (Ind-AS 108), the Company has disclosed Segment results in the Financial Results.

Items of Incomes/Expenses/Assets/Liabilities including borrowings/advances, provision for various taxes, common administrative

expenses, etc., which are not directly attributable/identifiable/allocable to an operating segment have been shown as Unallocable items.

The Figures have been regrouped and/or reclassified wherever necessary. 7 Segment wise Revenue Results and Capital Employed

TOTAL CAPITAL EMPLOYED

Place: Mumbai

Date: 5th August, 2021

PARTICULARS	Quarter Ended	Quarter Ended	Quarter Ended	Year Ended
TAKTIOOLAKO	30.06.2021 Unaudited	31.03.2021 Audited	30.06.2020 Unaudited	31.03.2021 Audited
Comment Description	Ullaudited	Audited	Unaudited	Audited
Segment Revenue				
a. Infrastructure & Real Estate				
b. Papers, Waste Papers & Allied Products	87.03	17.85	9.89	65.85
Net Sales/Income From Operation	87.03	17.85	9.89	65.85
Segment Results				
a. Infrastructure & Real Estate	-	-	-	-
b. Papers, Waste Papers & Allied Products	5.04	17.85	9.89	64.36
Less: Interest and Finance Charges	0.01	(0.02)	0.01	-
Total Segment Result before Tax	5.03	17.87	9.88	64.36
Less: Other Unallocable Expenditure	6.38	101.28	9.12	144.64
Total Profit before Tax	(1.35)	(83.41)	0.76	(80.28)
Capital Employed	, ,	, ,		` ′
(Segment Assets - Segment Liabilities)				
a. Infrastructure & Real Estate	1,723.40	1,718.40	1,723.40	1,718.40
b. Papers, Waste Papers & Allied Products	400.03	331.47	352.44	331.47
c. Unallocable	(97.94)	(23.03)	1.19	(23.03)
TOTAL CARITAL FARMOVER	0.005.40	0.000.04	0.077.00	0.000.04

By order of the Board of Directors

Exe-Director